

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 अधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 2001 (वैशाख 1, 1923)
 No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 2001 (VAISAKHA 1, 1923)

इस भाग में दिए गए अधिसूचनाएँ एक ही विषय के हैं और अलग-अलग संकलन के रूप में रखी जा सकें।
 (This part contains notifications on a single subject and may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
 सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Officers issued by
 the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सैन्य शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2001

सं 206, दिनांक 20 मार्च, 2001—राष्ट्रपति जी निम्न-
लिखित की महर्ष नियुक्ति करते हैं—

नियमित सेवा

स्थायी आयोग

सं 205, दिनांक 14 मार्च, 2001—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय
 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के. सी. मिश्र का स्वास्थ्य और
 परिवार कल्याण मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 1-3-2001
 (तदर्थ) से गले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय
 सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्त करने
 हैं।

एन. एन. गार्ग
 अवर सचिव

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैंडिडेट्स जिनके जी. सी. मर्या के पहले
 टी. (प्रदर्शित टी. जी. सी.) और य. (गवर्निंग एंड ई. एम.) उपसर्ग प्राप्त
 हुए हैं, को 13 जन 98 से विशेष सेवा आदेश 1/एम/94 के
 नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (टी. जी. सी.) तथा सेवा आदेश 2/93
 के अन्तर्गत (ए. ई. एम.) को वे के मद पर स्थायी आयोग प्रदान
 किया गया है। उन्हें 13 जन 96 से (टी. जी. सी.)

के जैन्टीनियर्स कैंडेड्स का सेवा अनुदेश 12/96 परिपोषित (परिपोषित संख्या 11, सेवा अनुदेश 2/93) से अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित परिष्कृत, जैसे तथा मूल्य के लिए हो जाये है —

यू/80 गरिन्दर सिंह उष्य (आई सी-58071 एम) इन्जीनियर्स की परिष्कृत टी/5549 परम चरण प्रीत लाल सिंह (आई सी-58070 के) इन्जीनियर्स के नीचे, टी 5522 धनेश प्रसाद प्रधान (आई सी-58084 के) इन्जीनियर्स और टी/5529 विक्रम सिंह राठौड़ (आई सी-58085 एन) इन्जीनियर्स की परिष्कृत यू/103 अथल अमिन अतिल (आई सी-58083 एफ) ई एम ई के नीचे,

टी/5520 पेमा दादल ग्यास्टां (आई सी-58091 ए) ई एम ई की परिष्कृत यू/83 एस सैन्थल रामधुरी (आई सी-58090 एक्स) इन्जीनियर्स के नीचे, टी/5527 विकास कुमारियां (आई सी-58095 डब्ल्यू) ई एम ई की परिष्कृत यू/98 माधुर मयल रत्नचन्द्रा (आई सी-58096 वाई) ई एम ई के ऊपर, टी/5526 दीपक कुमार (आई सी-58121 एम) इन्जीनियर्स की परिष्कृत टी/5525 सबीन लाल

(आई सी-58120 के) इन्जीनियर्स के नीचे, टी/5531 मृथीरंजी चन्दन कुमार (आई सी-58125 एच) ई एम ई की परिष्कृत यू/82 कुमार सचय (आई सी-58124 ए) मिगनल्म के नीचे परिपोषित की जाए जिसका गण भाग के राजपत्र दिनांक 10 अप्रैल 99 में प्रकाशित हो चुका है ।

2 निम्नलिखित जो सी को सेवा अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले क एच पर 13 जन 98 से स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है —

टी/5540 जो सी विकास कुमार सिंह रावत (आई सी-58094 एन)—ए ई सी ।

टी/5554 जो सी सजीव कुमार करण (आई सी-58123 एक्स)—ए ई सी ।

टी/30391 जो सी प्रीत कुमार (आई सी-58128 एन)—ए ई सी ।

एम. एस धनखुड
ले. कर्ना
डी ए एम एम 8बी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जैन्टीनियर्स कैंडेड्स जो कि 85 टी जी सी खीर 06 यू०ई०एस० पाठ्यक्रम के है, को ले० के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेवा अनुदेश 1 एम 94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को तथा सेवा अनुदेश 12/96 (मंशोधित सं० 11, सेवा अनुदेश 2/93) के अन्तर्गत य ई एम पाठ्यक्रम वाले को अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनवान किया जाता है ।

आई एम ए संख्या	एस एम संख्या	नाम	आरंभ मविस	अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि
85 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी 5520	एम एम-37351 एम	पेमा दादल ग्यास्टो	मिगनल्म	10 जलाई, 1997
टी 5522	37353 एम	धनेश प्रसाद प्रधान	इन्जीनियर्स	10 जलाई, 1997
टी 5526	37356 एन	दीपक कुमार	इन्जीनियर्स	10 जलाई, 1997
टी 5527	37357 एन	विकास कुमारिया	ईएमई	10 जलाई, 1997
टी 5529	37359 वाई	विक्रम सिंह राठौड़	ईएमई	10 जलाई, 1997
टी 5531	37361 डब्ल्यू	मृथीरंजी चन्दन कुमार	ईएमई	10 जलाई, 1997
06 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू 80	27390 एन	गरिन्दर सिंह उष्य	इन्जीनियर्स	08 अगस्त 1996

एम ० एम० धनखुड
ले० कर्ना
डी ए एम एम 8बी

नी सेना शाखा

स. 207, दिनांक 19 मार्च, 2001—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय क पत्र स. एम एच/1822/डी ई एस/1663/बू. एस. (पी)/डी (एन-2) दिनांक 29 सितम्बर 1999 के अन्तर्गत भारतीय नी सेना की इन्जीनियरी शाखा में निम्नलिखित नियुक्ति उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

स. ल. के रैंक में (परखाधीन)

सीधी भर्ती (इन्जीनियरी शाखा)

नाम, निजी स., कमीशन की क्रम और कमीशन की तिथि
अमिताभ सिंह 42002-एच अत्यकालीन—06-07-98।

ग्लेडविन्स के हनेरी 42014-के अत्यकालीन—28-08-98।

बाइसन राबिन माथो 42015-एन अत्यकालीन—28-08-98।

शशिधर के 42017-टी अत्यकालीन—31-08-98।

कुमार धीरेंद्र

कमांडर

डी डी एम पी बार (आर एण्ड आर-2)

(थल सेना विभाग)

सं. 208, दिनांक 15 मार्च, 2001—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदांतिष्ठता करते हैं—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गढ़वाल राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार (नं. 4064026 पी अब जे. सी. 528999 के)—04 जनवरी 2001।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1999 से दी जाती है)।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (नं. 4059643 एन अब जे. सी. 529000 एल)—01 अगस्त 2000।

हवलदार विजेंद्र सिंह (नं. 4065018 एच अब जे. सी. 529001 एन)—01 अक्टूबर 2000।

हवलदार पुष्कर सिंह तामर (नं. 4061194 पी अब जे. सी. 529002 डब्ल्यू)—22 दिसम्बर 2000।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2000 से दी जाती है)।

हवलदार राम गंगु सिह (नं. 4059029 एड अब जे. सी. 529003 वाई)—(05 नवम्बर 2000।

हवलदार चन्दन सिंह (नं. 4060588 पी अब जे. सी. 529004 एफ)—20 नवम्बर 2000।

हवलदार राज किशोर सिंह (नं. 4060650 डब्ल्यू अब जे. सी. 529005 के)—20 नवम्बर 2000।

हवलदार ग्यान सिंह (नं. 4058491 एल अब जे. सी. 529006 एम)—01 दिसम्बर 2000।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2000 से दी जाती है)।

हवलदार जयपाल सिंह (नं. 4063744 वाई अब जे. सी. 529007 पी)—08 जनवरी 2001।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाती है)।

हवलदार विजेंद्र सिंह (नं. 4058939 ए अब जे. सी. 529008 एक्स)—01 जनवरी 2001।

हवलदार भगवान सिंह (नं. 4059616 के अब जे. सी. 529009 ए)—01 जनवरी 2001।

हवलदार रघुवीर सिंह (नं. 4059422 एफ अब जे. सी. 529010 पी)—14 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दबी प्रसाद (सं. 4061441 एफ अब जे. सी. 528993 एच)—09 नवम्बर 2000।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जाती है)।

हवलदार अचन सिंह (सं. 4059994 एच अब जे. सी. 528994 एल)—01 जुलाई 2000।

हवलदार दलजीत सिंह रावत (सं. 4071464 ए अब जे. सी. 528995 एन)—05 जुलाई 2000।

हवलदार उदय सिंह (सं. 4058700 एक्स अब जे. सी. 528996 डब्ल्यू)—23 अक्टूबर 2000।

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2000 से दी जाती है)।

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4059690 एल अब जे. सी. 528997 वाई)—01 अक्टूबर 2000।

हवलदार नरेंद्र सिंह नेगी (सं. 4058966 के अब जे. सी. 528998 एफ)—01 नवम्बर 2000।

महार रॉजमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक फकीर चन्द चौहान (4549391 एफ अब जे. सी. 568884 वाई)—01 सितम्बर 2000।

हवलदार लिपिक राम सिंह तवर (4549451 एल अब जे. सी. 568885 एफ)—01 सितम्बर 2000।

हवलदार लिपिक राम पाल सिंह तोमर (4549475 पी अथ जेसी 568886 क) — 01 सितम्बर 2000 ।

जम्मू और काश्मीर राईफल

हवलदार अमीतुल्ला बंग (13739931 एम अथ जेसी-579101 पी) — 04 दिसम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार मेहन लाल (13741379 डब्ल्यू अथ जेसी-579102 एक्स) — 04 दिसम्बर 2000 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार राम क्रिशन (13741485 पी अथ जेसी-579103 ए) — 04 दिसम्बर 2000 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार जमान दीन (13740733 एन अथ जेसी-579104 एक्स) — 10 अक्टूबर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार रामेश कुमार (13739959 एम अथ जेसी-579105 एल) — 01 दिसम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार फिरपाल सिंह (13740817 एफ अथ जेसी-579106 एल) — 01 नवम्बर 2000 ।

हवलदार आंजार सिंह (13740166 डब्ल्यू अथ जेसी-579107 डब्ल्यू) — 01 नवम्बर 2000 ।

हवलदार कलश चन्द्र (13740258 एक्स अथ जेसी-579108 बाई) — 01 नवम्बर 2000 ।

हवलदार चंग सिंह (13739741 ए अथ जेसी-579109 एफ) — 24 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार तुलसी दास शर्मा (13739767 पी अथ जेसी-579110 डब्ल्यू) — 24 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार क्लर्क हरी क्रिशन (13741864 एल अथ जेसी-579111 बाई) — 06 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार (म्यूजिकन) के रैंक में

हवलदार म्यूजिकन रामेश सिंह (13741897 डब्ल्यू अथ जेसी-579100 एम) — 04 नवम्बर 2000 । *

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक (मौलवी) के रैंक में (नियुक्ति) - प्रभाव डाले ज्येष्ठता 04 जनवरी 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक (मासदी) के रैंक में (नियुक्ति)

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक (मौलवी) नज़राना हक (जेसी-579048 पी) — 22 जुलाई 2000 ।

जाट रजिस्ट्रार

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलदेव राज (स 3170145ए अथ जेसी-488906 ए) — 5 जनवरी 2001 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्ति और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

हवलदार जगदीश चन्द्र (स 3170701एल अथ जेसी-488962 एक्स) — 7 सितम्बर 2000 ।

हवलदार रामेश्वर लाल (स 3174167 डब्ल्यू अथ जेसी-488963ए) — 11 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार वेद प्रकाश (स 3170531एम अथ जेसी-488964 एक्स) — 1 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जगमाता सिंह नाम्वा (स 3166717 बाई अथ जेसी-488965एल) 1 नवम्बर 2000 ।

(जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री)

नायब सूबेदार का पदोन्नति के लिए

हवलदार नरन सिंह (9083749 एन अथ जे. सी. 592751 एफ) — 01 नवम्बर 2000 । *

*(01 सितम्बर 2000 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार नरक राम (9085418 एल अथ जे. सी. 592752 क) — 28 नवम्बर 2000 । @

@ (01 अक्टूबर 2000 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार मदन लाल (9085701 बाई अथ जे. सी. 592753 एन) — 01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार मोहम्मद इनाम रान (9086803 एफ अथ जे. सी. 592754 पी) — 01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार बलदेव सिन्हा (9083079 एक्स अथ जे. सी. 592745 एन) — 15 अक्टूबर 2000 । *

*(01 जुलाई 2000 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार मलक सिंह (9083339एफ अं. सी. 592746 डब्ल्यू)—15 अक्टूबर 2000 । @

@ (01 जुलाई 2000 को नायब सूबेदार रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार संसार चन्द (9083317 दाई अं. जे. सी. 592747 दाई)—15 अक्टूबर 2000 । X

X (01 अगस्त 2000 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार गुल्लू राम (9083489 एन अं. जे. सी. 592748 एफ)—15 अक्टूबर 2000 । %

% (01 सितम्बर 2000 को नायब सूबेदार रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार विजय कुमार (9084060 एन अं. सी. 592749 कं)—29 अक्टूबर 2000 । £

£ (01 सितम्बर 2000 को नायब सूबेदार रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

हवलदार फकीर सिंह (9084747 पी अं. जे. सी. 592750 दाई)—14 नवम्बर 2000 । &

& (01 अक्टूबर 2000 को नायब सूबेदार रैंक में वरिष्ठता दी जाती है) ।

जेनेरैलिस

नायब सूबेदार की रेट में

हवलदार पूरन चन्द (सं. 2669180 एच अं. जे. सी. 449045 एक्स)—01 सितम्बर 2000 ।

हवलदार रमेश सिंह (सं. 2674721 एच अं. जे. सी. 449046 ए)—08 सितम्बर 2000 ।

हवलदार दया नन्द (सं. 2672791 एच अं. जे. सी. 449047 एच)—02 अक्टूबर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000) ।

हवलदार राम नरेश सिंह यादव (सं. 2683363 कं अं. जे. सी. 449048 एन)—01 अक्टूबर 2000 ।

हवलदार जीत राम (सं. 2669131 ए अं. जे. सी. 449049 एन)—18 नवम्बर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 नवम्बर 2000) ।

हवलदार हास अली खां (सं. 2671251 एफ अं. जे. सी. 449050 एन)—01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार मुकुता राम (सं. 2667730 एफ अं. जे. सी. 449051 एन)—01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार बगदारी लाल (सं. 2670121 एच अं. जे. सी. 449052 एन)—01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 2668540 एम अं. जे. सी. 449053 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 2000 ।

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जाधव नन्दा हर्षार (सं. 2775460एफ अं. जे. सी. 458808के)—18 दिसम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 फरवरी 2000 से दी जाती है) ।

हवलदार पांडुरंग शामू बंसाई (सं. 2777368एफ अं. जे. सी. 458809एम)—13 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार विजय तुकाराम आमरणे (सं. 2775536डब्ल्यू अं. जे. सी. 458810एफ)—20 नवम्बर 2000 ।

हवलदार विजय तुकाराम आमरणे (सं. 2775536डब्ल्यू अं. जे. सी. 458810एफ)—20 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार कुमार रघुनाथ दादू (सं. 2779556एफ अं. जे. सी. 458811के)—01 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार करबंसे प्रह्लाद गणपत (सं. 2771171पी अं. जे. सी. 458812एम)—23 नवम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार राजेंद्र रामचंद्र महाडिक (सं. 2773075एच अं. जे. सी. 458813पी)—07 दिसम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार भालराव शंकर पुन्डीलकराव (सं. 2781780एच अं. जे. सी. 458814एक्स)—07 दिसम्बर 2000 । *

*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है) । *

हवलदार शार्नेश्वर गणपती गार्गकर (सं. 2776878डब्ल्यू अब जेसी-458815ए) —03 दिसम्बर 2000 ।*

*[नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है] ।

हवलदार परित सम्पत शंकर (सं. 2776532एम अब जेसी-458816ए) —03 दिसम्बर 2000 ।*

*[नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाती है] ।

हवलदार निकम सूर्यकांत मारुती (सं. 2778352ए अब जेसी-458817ए) —07 दिसम्बर 2000 ।*

*[नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाती है] ।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक डी बालाजी (सं. 2778508पी अब जेसी-458818ए) —04 दिसम्बर 2000 ।*

*[नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाती है] ।

5 जी आर (एफ एफ)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मुनेन्द्र मिह आर्या (सं. 5450250ए अब जेसी-617411एम) —03 नवम्बर 2000 ।*

*[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी] ।

हवलदार (लिपिक) नित्या नन्द सिवारी (सं. 5448677ए अब जेसी-617412पी) —01 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (लिपिक) जादू मनी वुडेक (सं. 5450300ए अब जेसी-617413एम) —01 दिसम्बर 2000 ।

डॉगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमेश चन्द चन्देल (3977984ए अब जेसी-519197आई) —06 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक अमरजीत मिह गटानिया (3977263 ए अब जेसी-519198ए) —01 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार लिपिक अशोक कुमार कील (3981118एम अब जेसी-519199के) —01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार लिपिक सुखदेव शर्मा (3977960ए अब जेसी-519200एम) —01 दिसम्बर, 2000 ।

हवलदार लिपिक कुलदीप चन्द कटोच (3981154 ए अब जेसी-519201डब्ल्यू) —01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार लिपिक गोपाल सिंह ठाकुर (3977300 पी अब जेसी-519202आई) —01 जनवरी, 2001 ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार यान बहादुर गुरुंग (सं. 5342804के अब जेसी-612348आई) —01 सितम्बर, 2000 ।

हवलदार कृष्ण बहादुर घले (सं. 5342835के अब जेसी-612349एफ) —01 सितम्बर, 2000 ।

हवलदार नन्द बहादुर गुरुंग 5344301एम अब जेसी-612350डब्ल्यू) —01 सितम्बर, 2000 ।

हवलदार प्रेम बहादुर राना (सं. 5343685ए अब जेसी-612351आई) —15 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार गजूर मान गुरुंग (सं. 5342365के अब जेसी-612352एफ) —01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार किशन थापा (सं. 5345374डब्ल्यू अब जेसी-612353के) —01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार विजेन्द्र कुमार थापा (सं. 5343141डब्ल्यू अब जेसी-612354एम) —01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार प्रेम काजी गुरुंग (सं. 5344865ए अब जेसी-612355पी) —01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार बालकृष्ण गुरुंग (सं. 5344182 एम अब जेसी-612356एम) —01 दिसम्बर, 2000 ।

मिश्र लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार चरन सिंह (4463777ए अब जेसी-508733डब्ल्यू) —14 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार (क्वर्क) (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (क्वर्क) शरद चन्द (4462553ए अब जेसी-508734आई) —01 जनवरी, 2001 ।

मिश्र रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लखविन्दर सिंह (3379467ए अब जेसी-498900एल) —01 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार सुरजीत सिंह (3380361ए अब जेसी-498901एल) —01 अक्टूबर 2000 ।

हवलदार गुरमीत सिंह (3377422एम अब जेसी-498902डब्ल्यू) —01 अक्टूबर 2000 ।

हवलदार बलवन्त सिंह (3379103आई अब जेसी-498903आई) —01 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार कृपाल मिह (3382913एम अब जेसी-498904एफ) —01 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार गरमीन सिंह (सं० 3378859 एम अब जेसी-498905 के)---22 अक्तूबर, 2000।

हवलदार प्रीति सिंह (सं० 3379544 पी अब जेसी-498906 एम)---01 नवम्बर, 2000।

हवलदार सतनाम सिंह (सं० 3379164 डब्ल्यू अब जेसी-498907 पी)---01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार अवतार सिंह (सं० 338147 पी अब जेसी-498908 एक्स)---01 जनवरी, 2001।

हवलदार जरनैल सिंह (सं० 3380654 डब्ल्यू अब जेसी-498909 ए)---01 जनवरी, 2001।

हवलदार कर्म सिंह (सं० 3385819 एन अब जेसी-498910 एच)---14 जनवरी, 2001।

हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 03374370 डब्ल्यू अब जेसी-498895 एल)---01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार जरनैल सिंह (सं० 03378793 एफ अब जेसी-498896 एन)---01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार सतपाल सिंह (सं० 03382028 एल अब जेसी-498897 डब्ल्यू)---01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार रेशम सिंह (सं० 03382584 एफ अब जेसी-498898 वाई)---01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार हरचरण सिंह (सं० 03382524 एम अब जेसी-498899 एफ)---01 दिसम्बर, 2000।

वी राजपूत रेजिमेंट

नाथन मूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक राम स्नेही सिंह (सं० 2975847 एन अब जेसी-478899 ए)---1 अगस्त, 2000।

हवलदार लिपिक राजवीर सिंह परमार (सं० 2976619 एक्स अब जेसी-478906 एल)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार लिपिक बृजगोपाल सिंह (सं० 2975583 एक्स अब जेसी-478907 एन)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार लिपिक हरि प्रसाद (सं० 2977088 एक्स अब जेसी-478919 एच)---1 दिसम्बर 2000।

हवलदार लिपिक कबीर सिंह (सं० 2977440 डब्ल्यू अब जेसी-478920 एक्स)---1 दिसम्बर, 2000।

नाथन मूबेदार के रैंक में

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (सं० 2975790 के अब जेसी-478892 डब्ल्यू)---18 अप्रैल, 2000।

(ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 2000 में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार राम किशन (सं० 2976855 वाई अब जेसी-478893 वाई)---30 अप्रैल, 2000।

हवलदार जनक सिंह गुजर (सं० 2976756 डब्ल्यू अब जेसी-478894 एफ)---23 दिसम्बर, 2000।

(ज्येष्ठता 30 अप्रैल, 2000 में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार देवी सिंह (सं० 2979527 डब्ल्यू अब जेसी-478895 के)---30 अप्रैल, 2000।

हवलदार शिव सिंह (सं० 2977357 वाई अब जेसी-478896 एम)---10 अगस्त, 2000।

(ज्येष्ठता 13 जून, 2000 में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार राज कुमार (सं० 2979636 एच अब जेसी-478897 पी)---19 जून, 2000।

हवलदार सुबोध कुमार मिश्रा (सं० 2977469 वाई अब जेसी-478898 एक्स)---1 जुलाई, 2000।

हवलदार राजपाल सिंह तंवर (सं० 2980005 एम अब जेसी-478900 के)---30 अगस्त, 2000।

(ज्येष्ठता 1 अगस्त, 2000 में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार रामेश्वर दयाल (सं० 2977387 डब्ल्यू अब जेसी-478901 एम)---7 अगस्त, 2000।

(ज्येष्ठता 1 अगस्त, 2000 में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 2978507 डब्ल्यू अब जेसी-478902 पी)---11 अगस्त, 2000।

हवलदार वेद राम सिंह भाटी (सं० 2975136 एन अब जेसी-478903 एक्स)---1 दिसम्बर, 2000।

हवलदार नर सिंह बहादुर सिंह (सं० 2977937 एन अब जेसी-478904 ए)---1 दिसम्बर, 2000।

हवलदार पृथ्वी सिंह राजपूत (सं० 2971529 एम अब जेसी-478905 एच)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार हवलदार सिंह (सं० 2979736 एन अब जेसी-478908 डब्ल्यू)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार गौशन लाल (सं० 2973883 ए अब जेसी-478909 वाई)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार राम करन गर्जर (सं० 2979493 एन अब जेसी-478910 एन)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार राम लाल सिंह (सं० 2979559 वाई अब जेसी-478911 डब्ल्यू)---1 अक्तूबर, 2000।

हवलदार हरे पाल सिंह (सं० 2979675 एफ अब जेसी-478912 वाई)---1 अक्तूबर 2000।

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 2974548 एच अब जेसी-478913 एफ)---5 अक्तूबर, 2000।

हवलदार नरेण तन्द्र शर्मा (सं० 2977637एम अब जेसी-478914फ)—14 नवम्बर 2000।

(ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2000 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले गिना)।

हवलदार जगत सिंह (सं० 2975216एम अब जेसी-478915एम)—26 अक्टूबर, 2000।

हवलदार विद्याचल सिंह (सं० 2976869वाई अब जेसी-478916पी)—1 नवम्बर, 2000।

हवलदार भाना राम (सं० 2980238एम अब जेसी-478917एक्स)—1 नवम्बर, 2000।

हवलदार भुमेश कुमार (सं० 2979425ए अब जेसी-478918ए)—1 नवम्बर, 2000।

बी० पी० वर्गीज, अवर मखिव

सं० 209, दिनांक 14 मार्च, 2001—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं—

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) शीकत अली (जे० सी०—347022 एच)—26 अगस्त 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) अजीत सिंह (जे० सी०—347800 एच)—17 अगस्त 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गुरबचन सिंह (जे० सी०—347711 के)—30 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मेहर सिंह (जे० सी०—347718 एन)—16 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रामदास (जे० सी०—347720 एल)—09 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गुरमेवक सिंह (जे० सी०—347771 वाई)—14 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) कपिल देव हुवे (जे० सी०—347790 के)—29 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रघबीर सिंह (जे० सी०—347802 एन)—02 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मलविंदर सिंह (जे० सी०—347531 एफ)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी० डी०) निम्ताकर महादेव मगस्राथ (जे० सी०—347716 एच)—18 दिसम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) गुरमेल सिंह (जे० सी०—347613 के)—13 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) राम असरे पाल (जे० सी०—347611 एम)—8 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) भगवान सिंह (जे० सी०—347668 एन)—9 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) जसमेल सिंह (जे० सी०—347637 एन)—9 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) शसशेर सिंह (जे० सी०—347618 एच)—2 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सतविंदर सिंह (जे० सी०—347646 पी)—6 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) गुरपाल सिंह (जे० सी०—347639 वाई)—6 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) रघबीर सिंह (जे० सी०—347619 एल)—24 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) जमुन्स प्रसाद (जे० सी०—347642 वाई)—20 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) ध्यान सिंह (जे० सी०—347641 डब्ल्यू)—11 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) जमाल दीन (जे० सी०—347620 ए)—8 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) देव सिंह (जे० सी०—347647 एक्स)—14 दिसम्बर 2000।

सूबेदार मेजर (एम० के० टी०) के रैंक में

सूबेदार (एम० के० टी०) रजीत सिंह (जे० सी०—216113 डब्ल्यू)—21 नवम्बर 2000।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) शाहजी बापमोडे (जे० सी०—186325 के)—20 मई 2000।

सूबेदार (जी० डी०) गुरनाम सिंह भटोया (जे० सी०—182598 पी)—2 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी० डी०) दिलबाग सिंह (जे० सी०—186335 एन)—5 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी० डी०) तुकागम लक्ष्मण निकम (जे० सी०—191663 एल)—9 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी० डी०) अजीत लकरा (जे० सी०—203062 पी)—1 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी० डी०) राजेन्द्र सिंह (जे० सी०—191667 एफ)—27 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी० डी०) फड पदमाकर शीमराव (जे० सी०—197262 एम)—23 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी० डी०) बंति सिंह (जे० सी०-197268 एन) — 22 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी० डी०) मस्त राम (जे० सी०-191629 एल) — 19 दिसम्बर 2000।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सोलंकी परशोत्तम कांजी (जे० सी०-203115 एच) — 23 अक्टूबर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सरूप सिंह (जे० सी०-203125 एम) — 15 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) पूनी लाल (जे० सी०-203119 वाई) — 23 अक्टूबर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) सुखमंदर सिंह (जे० सी०-203116 एल) — 10 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) निआजुद्दीन (जे० सी०-203011 एफ) — 7 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) गुरदर्शन सिंह (जे० सी०-203015 एक्स) — 1 नवम्बर 2000।

मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) के मूल रूप में

सूबेदार क्लर्क कोन्डय्य प्रसा ददुग्ला (जे० सी०-215796 एच) — 01 अगस्त 1999।

सूबेदार क्लर्क अब्दुल रहिमान एस० (जे० सी०-215848 एन) — 01 अगस्त 1999।

सूबेदार क्लर्क बालचन्द्रन वि० (जे० सी०-215856 एम) — 01 अप्रैल 2000।

सूबेदार क्लर्क मुकुन्दन के० के० (जे० सी०-215811 एम) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क वेणुगोपाल के० एस० (जे० सी०-215872 के) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क सि० डेलि क्रोस्टिरायन (जे० सी०-219351 एन) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क बर्गीस एम० ई० (जे० सी०-219352 डब्ल्यू) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क सलीम पी० ए० (जे० सी०-219354 एफ) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क सोमसुन्दरन पि० वि० (जे० सी०-219356 एम) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क शशिधरन के० आर० (जे० सी०-219363 एच) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क डि० धनन जय रावु (जे० सी०-219366 डब्ल्यू) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क जगदीश राठ (जे० सी०-219368 एफ) — 01 मई 2000।

2-24 GI/2001

सूबेदार क्लर्क जोम के० एम० (जे० सी०-219378 एल) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क स्टानिस्लोम मत्याम (जे० सी०-219387 एम) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क माथ्यू पोल (जे० सी०-219391 पी) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क पवित्रन पी० सी० (जे० सी०-219393 ए) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क ए० चेल्मप्पन (जे० सी०-219405 के) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क जे० गणेशेश्वर (जे० सी०-219425 एक्स) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क राजाराम के० (जे० सी०-215834 एन) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क जी० राम कृष्णन (जे० सी०-219340 एफ) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क शंकरन के० (जे० सी०-207464 के) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क जनार्धनन नायर आर० (जे० सी०-210306 ए) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क एन० माणिकम (जे० सी०-215805 वाई) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क अब्दुल करीम मि० के० (जे० सी०-210307 एच) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क, राबर्ट सोलमन (जे० सी०-215800 ए) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क श्रीकुमार आर० (जे० सी०-215855 के) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क, अनन्त पदमनाभन वि० (जे० सी०-210309 डब्ल्यू) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क लक्ष्मनन वि० वि० (जे० सी०-215818 डब्ल्यू) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क नरसिम्हन ए० (जे० सी०-215839 एम) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क टि० गणेशन (जे० सी०-219343 पि) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क कोदन्दा रामा (जे० सी०-219359 ए) — 01 मई 2000।

सूबेदार क्लर्क मुनिस्वामी आर० (जे० सी०-219364 एल) — 01 जून 2000।

सूबेदार क्लर्क एफ० मार्क (जे० सी०-219365 एम) — 01 जून 2000।

सूबेदार कलकं बेणुगोपालन पी० (जे० सी०-219392 एम) —01 जून, 2000 ।

सूबेदार कलकं रवीन्द्रत वे० के० (जे० सी०-219413 एम) —01 अगस्त, 2000 ।

सूबेदार कलकं मोमराजन नायर जे० (जे० सी०-219444 एम) —01 सितम्बर, 2000 ।

सूबेदार कलकं पवित्रन पी० वि० (जे० सी०-219496 आई) —01 अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार कलकं सिद्धार्थन टी० (जे० सी०-219505 पी) —01 नवम्बर, 2000 ।

सूबेदार मेजर एम० के० टी० के० मूल रूप में

सूबेदार एम० के० टी० कृष्ण वेल्लेर मुद्दुगेशन (जे० सी०-184834 के) —01 अगस्त, 1999 ।

सूबेदार एम० के० टी० रंगीनीडी लक्ष्मीनारायणा (जे० सी०-202772 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

सूबेदार एम० के० टी० मुरलीधरन पिल्लै बी० (जे० सी०-210363 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

सूबेदार कलकं (जीडी) के० मूल रूप में

नायब सूबेदार कलकं महादेवय्या (जे० सी०-305347 पी) —01 अप्रैल, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं बी० राजेन्द्रन (जे० सी०-305387 डब्ल्यू) —01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं चन्नयोर गोडा मुडिशौडर (जे० सी०-305388 आई) —01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं पी० के० वेलमणि (जे० सी०-305391 आई) —01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं वेंकटेशन एम० (जे० सी०-305393 के) —01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं जनार्दनन एम० बी० (जे० सी०-305394 एम) —01 अगस्त, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं सूरत राम यादव (जे० सी०-305439 एफ) —01 नवम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं जोन थोम्सन (जे० सी०-305495 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं पी० एम० वेंकटरामन (जे० सी०-305496 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं मुद्दुसुत के० (जे० सी०-305498 एन) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं शैल प्रबुद्ध खादर (जे० सी०-305499 डब्ल्यू) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं विजय कृष्णन के० (जे० सी०-305500 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं लावरेन्स डी० (जे० सी०-305503 एन) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं परमेश्वरन पिल्लै के० (जे० सी०-305505 आई) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं जयन एम० (जे० सी०-305506 एफ) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं विजयन ए० (जे० सी०-305507 के) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं सुरेश कुरुप आर० (जे० सी०-305510 के) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं आर० जनार्दनन (जे० सी०-305513 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं ममिदाला रामगोपाल राब (जे० सी०-305514 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं चलाट उणिक्कुणन (जे० सी०-305515 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं चन्द्रशेखरन पी० (जे० सी०-305516 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं बेणुगोपालन के० (जे० सी०-305517 एन) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं दयानन्द भविकाटि (जे० सी०-305556 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं शिवशंकर जाटि (जे० सी०-305557 पी) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं सी० श्रीनिवामन (जे० सी०-305559 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं कृष्णन एम० (जे० सी०-305582 ए) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं डी० मेनवाराज (जे० सी०-305583 एम) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं बेनि के० टी० (जे० सी०-305584 एन) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं मजीवन एम० (जे० सी०-305585 एन) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं मुद्दुशंकरन नायर जी० (जे० सी०-305586 डब्ल्यू) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं मक्काटि सी० एम० (जे० सी०-305587 आई) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं विजयन एम० (जे० सी०-305589 के) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलकं मथुराण कुमार ए० के० (जे० सी०-305598 आई) —07 दिसम्बर, 1999 ।

नायब सूबेदार कलक के० दुरे (जे० सी०-305599 एफ) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक वाणुकुमर भवानि शंकर (जे० सी०-305600 एल) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक सुरेशम पी० (जे० सी०-305601 एन) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक पी० मणि (जे० सी०-305602 डब्ल्यू) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक एस० एस० नारायण रेड्डी (जे० सी०-305603 वाई) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक पवित्रन एम० के० (जे० सी०-305613 एच) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक के० राजेन्द्रन (जे० सी०-305614 एल) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक मिराज माहम्मद गियाकत अनि बेग (जे० सी०-305615 एन) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक रत्नगिरि रावु गुलजालि (जे० सी०-305616 डब्ल्यू) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक नैताना रग नायकुत्तु (जे० सी०-305617 वाई) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक नारायणन एम० के० (जे० सी०-305618 एफ) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक पदमा कुमार एम० (जे० सी०-305619 के) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक महप बाबू के० आर० (जे० सी०-305734 के) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक मुरलि एम० (जे० सी०-305621 एफ) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक कृष्ण नन्दा (जे० सी०-305639 के) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक भास्कर त्रि० (जे० सी०-305642 एक्स) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक सुरेन्द्रन वासयिल (जे० सी०-305644 एच) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक के० धानापोल (जे० सी०-305650 डब्ल्यू) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक आर० मणि (जे० सी०-305652 एफ) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक गान्धीनाथन टी० (जे० सी०-305653 के) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक टी० तासयणन नायर (जे० सी०-305994 पी) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार मुरलीधरन पी० (जे० सी०-305666 एनसे) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक जय सिंह आर० (जे० सी०-305657 ए) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक कोरलप्पा बि० के० (जे० सी०-305658 एच) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक गुरुधोत्तमन पल्लिप्रत (जे० सी०-305659 एल) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक के० गणेशम (जे० सी०-305660 ए) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक बी० लक्ष्मणन (जे० सी०-305666 एफ) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक लोहिताकशन के० (जे० सी०-305667 के) — 07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार कलक विजय कुमार पी० एस० (जे० सी०-305669 पी) — 01 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार कलक सी० मसिदामणि (जे० सी०-305673 एक्स) — 01 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार कलक एस० अब्दुल रसल (जे० सी०-305675 एच) — 01 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार कलक मि० कृष्णन (जे० सी०-305685 ए) — 01 फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार कलक मुकुमारन के० (जे० सी०-305672 के) — 01 मार्च, 2000।

नायब सूबेदार कलक करतमाडा एम० राजकुमार (जे० सी०-305676 एल) — 01 मार्च, 2000।

नायब सूबेदार कलक होले बसथ्य बलिनमत (जे० सी०-305721 एम) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक अरुण बालिवेटी (जे० सी०-305722 पी) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक इकबाथ अब्दुल मकश्वर (जे० सी०-305724 ए) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक श्रीनिवास चवियम (जे० सी०-305725 एच) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक उमाकास्त मिश्रा (जे० सी०-305735 एम) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक अनन्त दामोधारन नायडु (जे० सी०-305738 ए) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक मत्ताय वाई (जे० सी०-305739 एच) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार कलक कृष्णन आर० (जे० सी०-305749 एक्स) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एम० आनन्दन (जे० सी०-305741 ए) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क ए० कुलन्दे (जे० सी०-305743 एल) — 01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क सेन्तिलबेल एम० (जे० सी०-305744 एन) — 01 मई 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क बी० रामु (जे० सी०-305745 डब्ल्यू) — 01 मई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एस० गुणशेखरन (जे० सी०-305746 बाई) — 01 मई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क वासुदेवन एम० पी० (जे० सी०-305747 एफ) — 01 मई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क पद्मा राजन के० के० (जे० सी०-305750 एफ) — 01 मई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क के० चन्द्रशेखरन (जे० सी०-305752 एम) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क डी० सुब्बा राम राजू (जे० सी०-305753 पी) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राजन टी० ए० (जे० सी०-305754 एक्स) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एम० सुब्बा (जे० सी०-305787 एच) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क जाण जी० (जे० सी०-305789 एम) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क कुमारन नायर सी० (जे० सी०-305790 एच) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क लक्ष्मीनारायण मिश्रा (जे० सी०-305792 एन) — 01 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क बी० के० जयपाल राज सिंह (जे० सी०-305793 डब्ल्यू) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क ललित मोहन नेगी (जे० सी०-305874 डब्ल्यू) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क के० दक्षिणा मूर्ति (जे० सी०-305795 एफ) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क निगप्पा गंगाल (जे० सी०-305796 के) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश भुनियप्पा गोल (जे० सी०-305797 एम) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एस० राजू मिश्रा अप्पलराजू (जे० सी०-305867 ए) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क बनोत शर्मा (जे० सी०-305798 पी) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क कोटेश्वर राघु वालेट्टि (जेसी-305799-एक्स) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एम० नागराजन (जेसी-305803 पी) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क एम० सुब्बा रेड्डी (जेसी-305804 एक्स) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क डी० पूर्णनन्दा (जेसी-305805 ए) — 01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क धरम पाल (जेसी-305806 एच) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क अन्तोणि जे० लोप्पम (जेसी-305831 एफ) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क डी० मारपल तम्बी (जेसी-305-832 के) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क आर० बीतराज (जेसी-305833 एम) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क गाविन्दस्वामी एस० (जेसी-305834 पी) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क कुरियन पी० जे० (जेसी-305836 ए) — 01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क गोल्लामुडि प्रभु दास (जेसी-305837 एच) — 01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क प्रवीप कुमार दास (जेसी-305841 एल) — 01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क हरिदासन बी० (जेसी-305853 ए) — 01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क रामचन्द्रन नायर एम० (जेसी-305869 एल) — 01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राजेन्द्र प्रकाश (जेसी-305856 एन) — 01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राजु एल० (जेसी-305857 डब्ल्यू) — 01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क श्रीधरम मोरोध (जेसी-305858 बाई) — 01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क नरहरि गिरी भट्टनवर (जेसी-305860 डब्ल्यू) — 01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राजेन्द्र पाल (जेसी-305861 बाई) — 01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क जैक इस्माइल (जेसी-305868 एच) — 01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क सेत्तराजू आर० (जेसी-305871 एच) — 01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राम लखन पाण्डे (जैसी-305873 एन)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क कोम्मसनि वी० रमण रेड्डी (जैसी-305875 बी)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क राजा राम (जैसी-305876 एफ)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क वी० विजय कुमार (जैसी-305877 के)—01 दिसम्बर, 2000।

सूबेदार एस०के० टी० के मूल रैंक में

नायब सूबेदार एस० के० टी० विजयन पी० आर० (जैसी-305913के)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार एस० के० टी० बसलिनाप्पा बागर (जैसी-305915पी)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार एस० के० टी० राधा कृष्णन नायर पी० (जैसी-305917ए)—07 दिसम्बर 1999।

नायब सूबेदार एस०के०टी० मोहनदास के० टी० (जैसी-305918एच)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार एस० के० टी० भान सिंह (जैसी-305919 एल)—01 मार्च 2000।

नायब सूबेदार एम० के० टी० बाहिन्दर सिंह (जैसी-305960एफ)—01 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार एम० के० टी० सुरेश सिंह दहिद्या (जैसी-305961के)—01 जून, 2000।

नायब सूबेदार एम० के० टी० भीम सिंह (जैसी-305962एम)—01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार एस० के० टी० खानु राम (जैसी-305963पी)—1 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार एस० के० टी० शमशेर सिंह (जैसी-305964एफ)—01 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार एस० के० टी० कप्तान सिंह (जैसी-305965ए)—01 अगस्त, 2000।

सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (स्टोर) जोस वी० जे० (जैसी-306451पी)—01 अगस्त 2000।

बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप

पक्के सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

पी० ए० सूबेदार मेजर जवाहर प्रसाद (जै० सी०—174872 एम)—01-09-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर मदन किशोर सिंह (जै० सी०—177101 एच)—01-10-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर निर्मल सिंह (जै० सी०—177106 बाई)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर शिव राम (जै० सी०—182445 एल)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर खेम बहादुर सुरंग (जै० सी०—182466 एफ)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर राम दयाल सिंह (जै० सी०—182469 पी)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर परमाम सिंह (जै० सी०—184746 एन)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर जगदीश सिंह (जै० सी०—182475 एच)—01-12-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर शिव राज सिंह (जै० सी०—182483 एफ)—01-12-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर बंस नारायण राय (जै० सी०—182488 ए)—01-01-2000।

पक्के सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में
पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) गम चन्द्र शुक्ल (जै० सी०—202868 एच)—01-07-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) मुनित राजन देव (जै० सी०—207880 एन)—01-07-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) ओम सिंह (जै० सी०—202939 बाई)—01-07-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) नरमजीत सिंह (जै० सी०—182516 एफ)—01-08-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) ओम प्रकाश (जै० सी०—210549 एल)—01-08-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) नामन चन्द्र छेत्रिया (जै० सी०—210520 ए)—01-08-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) जितेन्द्र कुमार पी० (जै० सी०—224823 एच)—01-09-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) रामेश चन्दर (जै० सी०—210554 डब्ल्यू)—01-10-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) किशन मकर मुकर्जी (जै० सी०—210580 के)—01-10-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) रमेश चन्दर शर्मा (जै० सी०—210564 ए)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) पनी राम आर्य (जै० सी०—210565 एच)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) जतिन्द्र नाथ शर्मा (जै० सी०—210570 एन)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) सुहस्र सिंह (जै० सी०—210586 बाई)—01-11-2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर कलक (जी० डी०) रमेश कुमार चक्रवर्ती (जे० सी०-210572 वाई) — 01 नवम्बर 2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर कलक (जी० डी०) बालक राम शर्मा (जे० सी०-210603 एन) — 01 नवम्बर 2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर कलक (जी० डी०) राधेन्द्र प्रताप मिश्र (जे० सी०-210605 वाई) — 01 दिसम्बर 2000।

पी० ए० सूबेदार मेजर कलक (जी० डी०) गोविन्द सिंह (जे० सी०-210573 एफ) — 01 दिसम्बर 2000।

(पक्के सूबेदार मेजर सर्वे के रैंक में)

पी० ए० सूबेदार मेजर सर्वे सेवा सिंह (जे० सी०-199757 एक्स) — 01 मई 2000।

(पक्के सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में)

पी० ए० सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-215908 वाई) — 01 जुलाई 2000।

पी० ए० सूबेदार गामा सिंह (जे० सी०-325467 पी) — 01 जुलाई 2000।

पी० ए० सूबेदार जीवन सिंह (जे० सी०-325468 एक्स) — 01 जुलाई 2000।

पी० ए० सूबेदार दलवीर सिंह (जे० सी०-325573 एन) — 01 जुलाई 2000।

पी० ए० सूबेदार प्रिय चन्द्र (जे० सी०-325570 पी) — 01 जुलाई, 2000।

पी० ए० सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी०-325575 वाई) — 01 अगस्त, 2000।

पी० ए० सूबेदार नरेश कुमार (जे० सी०-325576 एफ) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार राम कली सिंह (जे० सी०-325578 एम) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार भीमा चरन गिरी (जे० सी०-325580 के) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-325234 एम) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार राम दत्त जोशी (जे० सी०-325582 पी) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार सूरज भान (जे० सी०-325584 ए) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार दलजीत सिंह (जे० सी०-325122 एन) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार ललित चन्द (जे० सी०-325585 एच) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार महेन्द्र सिन्हा (जे० सी०-325684 एफ) — 01 सितम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार प्रभु नाथ सिंह (जे० सी०-325772 एफ) — 01 अक्टूबर, 2000।

पी० ए० सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-325706 वाई) — 01 अक्टूबर, 2000।

पी० ए० सूबेदार दिनेश चन्द्र जुयाल (जे० सी०-325774 एम) — 01 अक्टूबर, 2000।

पी० ए० सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद सिंह (जे० सी०-325707 एफ) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार वसन्त बल्लभ खोहरी (जे० सी०-325775 पी) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार किरपाल सिंह (जे० सी०-325794 ए) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार पालबिन्दर सिंह (जे० सी०-325777 ए) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार बदा तन्द (जे० सी०-325778 एच) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार फौजा सिंह (जे० सी०-325779 एल) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे० सी०-325859 एच) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार बृज बिहारी सिंह (जे० सी०-325709 एम) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार दान सिंह (जे० सी०-325781 एच) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार बेनेन्द्र सिंह (जे० सी०-325782 एल) — 01 नवम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-325710 एफ) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार कामेश्वर प्रसाद सिंह (जे० सी०-325860 एक्स) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार प्रसन्न सिंह (जे० सी०-325711 के) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार सरजीत सिंह (जे० सी०-325713 एम) — 01 दिसम्बर, 2000।

पी० ए० सूबेदार रूप नाथ (जे० सी०-325784 डब्ल्यू) — 01 दिसम्बर, 2000।

(पक्के सूबेदार कलक (जी० डी०) के रैंक में)

पी० ए० सूबेदार कलक (जी० डी०) विमल देवारी (जे० सी०-325528 एफ) — 01 जनवरी, 2000।

पी० ए० सूबेदार कलक (जी० डी०) राज माल सिंह (जे० सी०-325534 पी) — 01 जनवरी, 2000।

पी० ए० सूबेदार कलक (जी० डी०) हरीश चन्द्र (जे० सी०-325181 ए) — 01 जून, 2000।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) विनोद शंकर मिश्र
(जे० सी०-३२५५४ एम०) --०१ जुलाई, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) हिमांगु सेजर
ताष (जे० सी०-३२५५५ एम०) --०१ अगस्त, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) जगतार सिंह
(जे० सी०-३२५२०४ डब्ल्यू०) --०१ जुलाई, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) रमेश चन्दर
(जे० सी०-३२५५५२ एम०) --०१ अगस्त, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) सत पाल (जे०
सी०-३२५३०७ पी०) --०१ अगस्त, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) फकीर चन्द (जे०
सी०-३२५६८५ एम०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) महेश कुमार वर्मा
(जे० सी०-३२५५९८ ए०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) प्राक्रम सिंह यादव
(जे० सी०-३२५५९९ एच०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) राकेश कुमार शर्मा
(जे० सी०-३२५६०० एम०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) धरम पाल (जे०
सी०-३२५६०१ पी०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) अशोक कुमार साहनी
(जे० सी०-३२५६०२ एम०) --०१ अक्टूबर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) हरीश चन्द्र पाण्डे
(जे० सी०-३२५६०३ एच०) --०१ अक्टूबर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) देव राज शर्मा (जे०
सी०-३२५६०४ एच०) --०१ अक्टूबर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) नरेन्द्र प्रसाद शर्मा
(जे० सी०-३२५६८६ डब्ल्यू०) --०१ अक्टूबर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) सुरेश कुमार
(जे० सी०-३२५६०५ एम०) --०१ अक्टूबर, २०००।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) सोहन सिंह (जे०
सी०-३२५६०६ एम०) --०१ जनवरी, २००१।

पी० ए० सूबेदार कलर्न (जी० डी०) भुरा (जे० सी०-
३२५६०८ आई०) --०१ जनवरी, २००१।

एक सूबेदार सर्वे के रैंक में

पी० ए० सूबेदार सर्वे अश्वमेध कुमार सिंह (जे० सी०-
३२५०५३ एच०) --०१ मार्च, १९९८।

पी० ए० सूबेदार सर्वे सुरिन्दर सिंह (जे० सी०-
३२६४७९ डब्ल्यू०) --०१ सितम्बर, २०००।

पी० ए० सूबेदार सर्वे अक्रम अली (जे० सी०-३२५८१६
एम०) --०१ नवम्बर, २०००।

रधीन्द्र कुमार ओझा
उप सचिव

सं० २१०, दिनांक १६ मार्च, २००१ :--राष्ट्रपति
वहण निम्नलिखित पदोन्नतियां करने हैं :--

विधिवत सेवा

कौर आफ मिशन

स्थाई सूबेदार मेजर (आई० आफ एस०) के रैंक में

सूबेदार प्रदीप कुमार लाल (जे० सी०-१७५७५१
एम०) --०१ अगस्त, २०००।

सूबेदार हरदेव सिंह (जे० सी०-१७५७५२ ए०) --०१
अगस्त २०००।

सूबेदार एम्बोनी जोसेफ (जे० सी०-१७५७५५ एम०)
--०१ सितम्बर २०००।

सूबेदार जगदीश चन्द (जे० सी०-१७६७५८ एच०)
--०१ अक्टूबर २०००।

सूबेदार सुरिन्दर पाल (जे० सी०-१८०९३२ एम०)
--०१ नवम्बर २०००।

स्थाई सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में
सूबेदार बलदेव राम (जे० सी०-१७२८४६ एम०)
--०१ अगस्त, २०००।

सूबेदार एम० मधिलाल (जे० सी०-१७२८५३ एच०)
--०१ अगस्त, २०००।

सूबेदार मणिकर्मा मागम कामाखी सुन्दरम् (जे० सी०-
१७२८५५ एम०) --०१ सितम्बर, २०००।

सूबेदार अनोब सिंह शेखावन (जे० सी०-१७३६१७ एम०)
--०१ जनवरी २००१।

सूबेदार पवन कुमार (जे० सी०-१७३६२० एम०) --
०१ जनवरी, २००१।

सूबेदार विजय बहादुर पाल (जे० सी०-१८९३२९ आई०)
--०१ जनवरी, २००१।

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ० पी० साईफर) के रैंक में
सूबेदार बिशम्बर दाम (जे० सी०-१८८०४७ ए०) --
०१ जुलाई, २०००।

सूबेदार परकाश चन्द (जे० सी०-१८२१५८ एफ०) --
०१ अगस्त, २०००।

सूबेदार अम्बिका राय (जे० सी०-१८८०४० डब्ल्यू०)
--०१ नवम्बर, २०००।

सूबेदार भागेश्वर बरदलाई (जे० सी०-१८८०६१ एम०)
--०१ नवम्बर, २०००।

सूबेदार आनन्द सिंह नेगी (जे० सी०-१८८०६२ पी०)
--०१ दिसम्बर, २०००।

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-१८८०६७ एम०)
--०१ दिसम्बर, २०००।

सूबेदार क्षितिज चन्द्र सिंह (जे० सी०-१८८०६८ डब्ल्यू०)
--०१ दिसम्बर, २०००।

सूबेदार फौजा सिंह (जे० सी०-१८८०७७ एम०) --
०१ दिसम्बर, २०००।

स्थाई सूबेदार मेजर (ओ० पी० स्पेशल) के रैंक में
सूबेदार वीप्ती लाल मिश्रा (जे० सी०-२१५३१८ आई०)
--०१ जून २०००।

सूबेदार राम प्रसाद मिश्रा (जे० सी०-२१४२७० के) --
०१ सितम्बर, २०००।

सूबेदार मंगन राम शर्मा (जे० सी०-२१४२७१ एम०)
--०१ अक्टूबर २०००।

सूबेदार बसुपका माझा (जे० सी०-२१४२७८ डब्ल्यू०)
--०१ अक्टूबर, २०००।

सूबेदार यश नारायण वर्मा (जे० सी०-367370 एल०) --01 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार रवीन्द्रन के (जे० सी०-215322 एफ०) --01 दिसम्बर, 2000।

सूबेदार मेघ राम सुमन (जे० सी०-215332 एल०) --01 दिसम्बर, 2000।

स्थाई सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में
सूबेदार रमेश चन्द्र चौधरी (जे० सी०-220548 डब्ल्यू) --01 सितम्बर, 2000।

सूबेदार चाको एम श्री (जेसी-220552 बाई) --01 दिसम्बर 2000।

सूबेदार जगन्नाथ सिंह (जेसी-220556 पी) --01 जनवरी 2001।

स्थाई सूबेदार (एम के टी) के रैंक में
सूबेदार बलर सिंह पटानिया (जेसी-197701 एम) --01 अगस्त 2000।

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में
सूबेदार बंसीधर प्रधान (जेसी-220415 ए) --01 जून 2000।

सूबेदार श्री ओम बोजगे (जेसी-221468 एल) --01 जून 2000।

सूबेदार धरम पाल (जेसी-221337 ए) --01 जुलाई 2000।

सूबेदार भूपाल सिंह कंवर (जेसी-223442 पी) --01 अगस्त 2000।

सूबेदार सुदर्शन कुमार (जेसी-221475 एफ) --01 सितम्बर 2000।

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-221476 के) --01 सितम्बर 2000।

सूबेदार बीरमणि मिश्रा (जेसी-221479 एफएम) --01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार राम कुमार कुजवाहा (जेसी-367029 एल) . 01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार रवीन्द्रन कुमार (जेसी-367030 एच) --01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार मंगन बिहारी पांडेय (जेसी-367031 एल) --01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार भीता राम (जेसी-367040 एम) --01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-221481 पी) --01 अक्टूबर 2000।

सूबेदार जयपाल मिश्र मानव (जेसी-367044 एच) --01 नवम्बर 2000।

सूबेदार हीराधर सिंह मानव (जेसी-367047 डब्ल्यू) --01 नवम्बर 2000।

सूबेदार अब्दुल मन्नाज (जेसी-367053 के) --01 नवम्बर 2000।

सूबेदार राम अयोध्या सिंह (जेसी-367054 एम) --01 नवम्बर 2000।

सूबेदार किशोरी लाल (जे०सी-367058 पी) --01 नवम्बर 2000।

सूबेदार रामजी (जे० सी०-367059 एल) --01 दिसम्बर 2000।

सूबेदार शंकर भगवान भगत (जे० सी०-220380 बाई) --01 जनवरी 2001।

सूबेदार सुख राज (जे०सी-223454 के) --01 जनवरी 2001।

सूबेदार अशोक कुमार उपाध्याय (जे०सी-223458 ए) --01 जनवरी 2001।

सेना सेवा कोर

(यांत्रिक परिवहन)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तबिन्द्रा कुमार सिंह (नं० 13860409 एम अब जे०सी०-661957 एम) --01 अप्रैल 2000।

हवलदार राम प्रताप (नं० 13859884 डब्ल्यू अब जे०सी०-661958 पी) --01 जुलाई 2000।

हवलदार सुभाष चन्द्र (नं० 13859871 बाई अब जे०सी०-661959 एम) --01 जून 2000।

हवलदार नालक सिंह (नं० 13859928 एच अब जे०सी०-661960 एम) --13 मई 2000।

हवलदार करन सिंह (नं० 13859992 ए अब जे०सी०-661961 पी) --10 मई 2000।

हवलदार राम पाल सिंह (नं० 13855882 एन अब जे०सी०-661962 एम) 11 मई 2000।

हवलदार राम बिनोद सिंह (नं० 13832177 एच अब जे०सी०-661963 ए) --16 मई 2000।

हवलदार दीपक राम (नं० 13832505 एल अब जे० सी०-561964 एच) 27 मई 2000।

हवलदार राम नारायण (नं० 13832501 बाई अब जे०सी०-661965 एल) --09 जून 2000।

हवलदार मोदिन्द्र कुमार सिंह (नं० 13832170 एल अब जे०सी०-661967 डब्ल्यू) --17 मई 2000।

हवलदार चिन्ता मणी पाल (नं० 13861764 डब्ल्यू
अव जे०सी०-661968 वाई)---05 जून 2000 ।

हवलदार रामेश चन्द (नं० 13832122 एअव जे०सी०-
661969 एफ)---03 जुलाई 2000 ।

हवलदार जकर प्रसाद दास (नं० 13861412 एअव अव
जे०सी०-661970 डब्ल्यू)---10 मई 2000 ।

द (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित
किये बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2000 से दी जायेगी) ।

त (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित
किये बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जायेगी) ।

श्रु (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित
किये बिना ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम आशर्या (नं० 13833073 एन अव जे०
सी०-661971 वाई)---11 मई 2000 ।

हवलदार लक्ष्मण राम शर्मा (नं० 13863524 एअस अव
जे०सी०-661972 एफ)---15 मई 2000 ।

हवलदार नेपाल मांझी (नं० 13863537 पी अव जे०
सी०-661973 के)---25 मई 2000 ।

त (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित
किये बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जायेगी) ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विश्व नाथ (जे० सी०-660598-एअस)---
21 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार दया नन्ध (जे० सी०-661001-डब्ल्यू)---
05-फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राम छबीले (जे० सी०-661068-एफ)
---30 नवम्बर 1999 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जे० सी०-661184-एअस)---
23 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार मदन किशोर शर्मा (जे० जी०-661427-
एअस)---28 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार पुष्कर सिंह भंडारी (जे० सी०-661194-
एफ)---01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार राम प्रसाद पन (जे० सी०-661195-के)
---16 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार महेन्द्र भगत (जे० सी०-661171-ए)---
01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार रामेश नाथ शर्मा (जे० सी०-661196-एअस)
---06 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार अगदीश चन्द्र (जे० सी०-661211-पी)---
01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार राम निवास (जे० जी०-661197-पी)---
01 अप्रैल 2000 ।

3-24 GI/200

नायब सूबेदार मोम नाथ (जे० सी०-661165-एअस)---
01 मई 2000 ।

द (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये
बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 1999 से दी जायेगी) ।

त (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता 01 जून 1999 से दी जायेगी) ।

श्रु (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1999 से दी जायेगी) ।

द (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1999 से दी जायेगी) ।

त (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये
बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2000 से दी जायेगी) ।

श्रु (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2000 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार हीरा लाल महतो (जे० सी०-661656
एअस)---01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार अरुणानन्द जेता (जे० सी०-660821 डब्ल्यू)
---08 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार सुधीर प्रसाद सिंह (जे० सी०-661331
पी)---25 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह खाती (जे० सी०-661160
एअस)---01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार जोगेन्द्र लाल (जे० सी०-661212 वाई)
01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जे० सी०-661168 पी)---
01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार ओंकार सिंह राणा (जे० सी०-661219 एअस)
---29 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार गुरजान सिंह (जे० सी०-661170 एअस)
---30 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार केसराम सिंह (जे० सी०-661168 एअस)
---13 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार अजय कुमार (जे० सी०-661246 एअस)
---29 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार हंस राज यादव (जे० सी०-661574 एअस)
---31 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार मोहन राम (जे० सी०-661280 एअस)
---01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार नीरंजन मोहंती (जे० सी०-661222 एअस)
---01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार देवेश्वर पाल मिह (जे०सी०-661224एन)
—31 अगस्त 2000

इ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1999 में दी जाएगी) ।

ल (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 1 जून 1998 में दी जाएगी) ।

श (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 1 जून 1999 से दी जाएगी) ।

ल (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 2000 में दी जाएगी) ।

श (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 1 जून 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार मदन लाल (जे०सी०-661225 डब्ल्यू)—31 अगस्त 2000

नायब सूबेदार गोपाल दाम (जे०सी०-661251 एक्स)—01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार संदीप कुमार चक्रवर्ती (जे०सी०-661228 के)—21 सितम्बर 2000

नायब सूबेदार नरसा राम जाट (जे०सी०-661306 डब्ल्यू)—31 अगस्त 2000

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जे०सी०-661230एफ)—18 सितम्बर 2000

नायब सूबेदार अजित कुमार सिंह (जे०सी०-661255 एम)—01 अगस्त 2000 ।

श (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2000 में दी जाएगी) ।

आर० चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं० 211, दिनांक 14 मार्च, 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :—

नियमित सेवा

रक्षा तथा सुरक्षा कौशल

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार राम कुमार (जे०सी०-142649 पी)—01 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार सावन मिह (जे०सी०-135129 एफ)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार सुरजीत मिह (जे०सी०-123679 एक्स)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार जिबा नन्द (जे०सी०-128404 एन)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार पूरन सिंह (जे०सी०-103426 एफ)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार जसू राम (जे०सी०-137803 वाई)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार जय प्रकाश (जे०सी०-137493 वाई)—01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार तरसेम मिह (जे०सी०-114106 एम)—01 दिसम्बर 2000 ।

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार भगवत मिह (जे०सी०-840064 पी)—01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राम किशन मिह (जे०सी०-840078 पी)—01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जे०सी०-840075-एफ)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार शिवराज सिंह चौहान (जे०सी०-840132-एक्स)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार पूजन चित्त बेल (जे०सी०-840062-के)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रज्जीत सिंह (जे०सी०-840079-एक्स)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार कनवर मिह (जे०सी०-840081-पी)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राजा राम (जे०सी०-840068-एल)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार लाछी राम (जे०सी०-840114-पी)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार मेघ सिंह (जे०सी०-840092-एफ)—1 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रवीन्द्र प्रसाद मिह (जे०सी०-186070-पी)—1 दिसम्बर 2000 ।

स्थायी सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार सिया राम प्रसाद यादव (जे०सी०-125183-एफ)—01 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार दारा मिह (जे०सी०-117767-एक्स)—01 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार पी० बाबा सुन्दरम (जे०सी०-114408-एच)—01 नवम्बर 2000 ।

सूबेदार तरसेम मिह (जे०सी०-103533-एक्स)—01 नवम्बर 2000 ।

स्थायी सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार बी० एन० शिशुनन नायर (जे० सी०-840048-एनस) 01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह सन्धू (जे० सी०-840053-एच) 01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-840055-एन) 01 अक्टूबर 2000 ।

नायब सूबेदार कनैया सिंह (जे० सी०-129571-डब्ल्यू) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार बाला राम मोरे (जे० सी०-146586-पी) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-142237-एन) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार मुनीश चन्द (जे० सी०-183378-एक्स) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०-128093-एल) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार सीता राम गता (जे० सी०-171125-डब्ल्यू) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार पियारा सिंह (जे० सी०-142486-एम) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार गुलजार सिंह (जे० सी०-186566-के) 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार मन्वीर सिंह चौहान (जे० सी०-166990-एल) 01 नवम्बर 2000 ।

आर० एस० चौधरी
अवर सचिव

विद्युत एवं यात्रिकी इंजीनियरिंग कोर

स० 212, दिनांक 15 मार्च, 2001-राष्ट्रपति, श्री के० आर० ओमनकुटुन, फोरमेन एवं चार्जमेन-I को दिनांक 07 फरवरी 2001 से ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी ग्रुप 'बी' (अब सहायक अभियन्ता) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं ।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

राष्ट्रपति, श्री निर्मल सन्धा (एम० टी०), सैनियर स्टोर सुपरइन्टेन्डेंट को दिनांक 10-02-2001 से ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी, ग्रुप 'बी' (अब सहायक अभियन्ता) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं ।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

राष्ट्रपति, श्री डी० एस० मिश्रा, चार्जमेन-I (फिटर) (पार्ट-II केडर) को दिनांक 09-02-2001 से ई० एम० ई०

कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी, ग्रुप 'बी' (अब सहायक अभियन्ता) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं ।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

राष्ट्रपति, श्री जी० राधा कृष्णा, फोरमेन (अब चार्जमेन-I) को दिनांक 07 फरवरी 2001 से ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी, ग्रुप 'बी' (अब सहायक अभियन्ता) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं ।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

राष्ट्रपति श्री के० शंकरन कुट्टी नायर, फोरमेन (अब चार्जमेन-I) को दिनांक 07 फरवरी 2001 से ई० एम० ई० कोर, रक्षा मंत्रालय में कर्मशाला अधिकारी, ग्रुप 'बी' (अब सहायक अभियन्ता) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं ।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे ।

टी० सी० जैन,
उप सचिव

स० 213, दिनांक 19 मार्च 2001-राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं —

स्थायी कमीशन

मेजर जनरल से ले० जनरल के पद पर

बी०एन० शाही ए०बी०एम०एम० बी०एम०एम०पी०एच० एम० (एम आर-2562) ए०एम०सी०/पीसी 09-11-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-09-2000)

ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर

वि० डब्ल्यू तिलक (एम आर-2325) ए०एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000) ।

एच० एम० गिल (एम आर-2127) ए०एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000) ।

ए० के० मसुरिया (एम आर-2336) ए०एम सी/पी सी 01-06-2000) ।

(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000) ।

ए० के० लहरी (एम आर-2224) ए०एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000) ।

पी० आर० एस० राठौर (एम आर-2500) ए एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(उपेष्टता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000) ।

आर० के० गुप्ता (एम आर-2511) ए एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(उपेष्टता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-06-2000)

टी आर एस शर्मा (एम आर-2082) ए एम सी/पी सी 01-06-2000 ।

(उपेष्टता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 19-12-97)

कैप्टन से मेजर के पद पर

बी० एस० दीपक (एम० आर०-07312 बाई), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

अजीत कुमार सिंह (एम० आर०-07195 बाई), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

के० बी० राधाकृष्णा (एम० आर०-07305 एच) ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

मनु टंडन (एम० आर०-07317 एक्स), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

मस्थि दिवाकर (एम० आर०-07327 के), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

एस० के० मिश्रा (एम० आर०-07370 एच), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

वेवाशीश दत्ता (एम० आर०-07383 ए), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

श्रीमति राजशिवंदर कौर (एम० आर०-07369 पी), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

सर्जन लेफ्टि० से सर्जन लेफ्टि० कमांडर के पद पर

संजीव कुमार (एम० आर०-07212 एन) (75599), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

एस० के० साहू (एम० आर०-06944 एक्स) (75589 टी), ए० एम० सी०-14 जनवरी 2000 ।

बी० विकास (एम० आर०-07447 ए) (75621), ए० एम० सी०-04 सितम्बर 2000 ।

आर बटलिश (एम आर-06802 ए) (75538), एएमसी-14 जनवरी 2000 ।

जे० आर० भारद्वाज
मेजर जनरल
अपर महानिदेशक

सं० 214, दिनांक 20 मार्च, 2001—थल सेना अनुदेश 37/78, तथा उनके किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति महर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक वृत्त चिकित्सा कौर/स्थाई कमीशन

कर्नल से ब्रिगेडियर अथवा समकक्ष पद पर

बी० पी० मचदेवा (डी आर-10231 के) 12-12-2000 ।

ब्रिग कमांडर से ग्रुप कैप्टन अथवा समकक्ष पद पर

विमल अरोड़ा (डीआर-10298-एच) (ए एफ-16025) 1-6-2000 । परन्तु वैकल्पिक वरीयता 01-6-2000 से दी जाएगी ।

मेजर से ले० कर्नल के पद पर

तरुण कुमार (डी आर-10408-एम) 28-11-2000 ।

कैप्टन से मेजर रैंक में

एम० प्रकाश (डी आर-10453-एक्स) 26-9-2000 (परन्तु मेजर रैंक में वरीयता 28-8-1997 से दी जाएगी जो वेतन व भत्तों के लिए प्रभावी नहीं होगी ।)

लेफ्टिनेंट से कैप्टन अथवा समकक्ष पद पर

अमित खटक (डी० आर-10500-एल)-09-3-2000 ।

कुमारी मोनिता आहुजा (डी० आर-10501-एन)-21-11-2000 ।

आर० के० सेठी,
ब्रिगेडियर उप डीजीडी एस

सं० 215, दिनांक 19 मार्च, 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

ले० कर्मण से कर्नल के मूल रैंक में

बी०पी० सिंह (आई०सी-33859), जे ए जी-01 जुलाई 1997 ।

आर० एस० राणा (आई० सी-30527), इन्फैंटरी—01 जनवरी 1998 ।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

राकेश भल्ला (आई० सी०-38410) ए सी—14 जनवरी 2000 ।

कुलवरन सिंह (आई० सी०-38769), इन्फैंटरी—07 जून 2000 ।

एच० एस० शर्मा (आई० सी०-38409), इन्फैंटरी—14 जनवरी 2000 ।

द्विजयित मिह (आई० सी०-39021), ए० ओ० सी०—
07 जून 2000।

आर० के० चुग (आई० सी०-38979), सिगनल्स—
07 जून 2000।

आर० पी० वर्मा (आई० सी० 38868), इन्फंट कोरप्स
—07 जून 2000।

अनिल अवस्थी (आई० सी०-39015), ए० ओ० सी०
—07 जून 2000।

मुकेश कपूर (आई० सी०-38935), आरटी०—
07 जून 2000।

बी० के० जेमवाल (आई० सी०-38848), ए० डी०
आर० टी०—07 जून 2000।

आर० के० मन्वाणे (आई० सी०-37600), इनफेन्टरी—
—30 अप्रैल 2000।

सुनील जैन (आई० सी०-39003), इनफेन्टरी—
07 जून 2000।

पी० के० सहगल (आई० सी०-38888), इन्फंट कोरप्स
—07 जून 2000।

मुकेश कुमार (आई० सी०-38990), इनफेन्टरी—
07 जून 2000।

ओम प्रकाश (आई० सी०-38079), इनफेन्टरी—
09 जून 2000।

एम० के० राठौर (आई० सी०-38914), इनफेन्टरी
—07 जून 2000।

बुद्ध राम (आई० सी०-38345), इनफेन्टरी—
14 जनवरी 2000।

बी० के० चौवे (आई० सी०-40667), इंजीनियर—
12 जून 2000।

आई० पी० मिह (आई० सी०-38965), इनफेन्टरी—
07 जून 2000।

एन० एम० डी० सोलकी (आई० सी०-40669),
सिगनल्स—12 जून 2000।

के० के० सज्जू (आई० सी०-37585), इनफेन्टरी—
30 अप्रैल 2000।

संधीप खन्ना (आई० सी०-40657), ई० एम० ई०—
12 जून 2000।

ए० के० मिह (आई० सी०-38828), ए० एम० सी०
—07 जून 2000।

एस० के० शर्मा (आई० सी०-39046), ए० डी० सी०
—07 जून 2000।

बी० एस० धालीवाल (आई० सी०-38862), इनफेन्टरी
—07 जून 2000।

अजनी कुमार (आई० सी०-38982), आरटी०—
07 जून 2000।

ए० के० मेहता (आई० सी०-38793), इनफेन्टरी—
07 जून 2000।

मधू बेरी (आई० सी०-38378), आरटी०—14
जनवरी 2000।

ए० के० वत्त (आई० सी०-37589), ए० डी० आर०
टी०—30 अप्रैल 2000।

जी० बी० थपलियाल (आई० सी०-37583), इनफेन्टरी
—30 अप्रैल 2000।

नीरज टण्डन (आई० सी०-38346), सिगनल्स—
14 जनवरी 2000।

एस० के० शर्मा (आई० सी०-40647), सिगनल्स—
12 जून 2000।

हर्ष पाहवा (आई० सी०-38881), आरटी०—07
जून 2000।

पी० जे० सिंह (आई० सी०-37708), इनफेन्टरी—
14 नवम्बर 2000।

एस० एम० सयाल (आई० सी०-38924), ए० सी०
—07 जून 2000।

बी० के० गयन (आई० सी०-36512), ई० एम० ई०
—21 अक्टूबर 1994।

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

आर० एस० राणा (आई० सी०-35527), इनफेन्टरी
—30 दिसम्बर 1994।

बी० पी० सिंह (आई० सी०-33859), जे० ए० जी०
—30 दिसम्बर 1994।

जयन्ता सरकार (आई० सी०-33865), सिगनल्स—
30 जून 1995।

डी० कुमार (आई० सी०-36263), इनफेन्टरी—
31 दिसम्बर 1995।

डी० एच० माइकल (आई० सी०-33946), इनफेन्टरी
—30 जून 1996।

एम० एम० सिन्हा

सी० एम० ओ०

जी० ए० एम० एस० 8ए०

सेना चिकित्सा कोर

सं० 216, दिनांक 19 मार्च, 2001—राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को सेना से समय पूर्व सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नाम, रैंक और एम० आर० नं०	निवृत्ति की तिथि
(क) कर्नल एस० के० बिश्वास (एम० आर०-2616)	25-8-99 (ए० एन०)
(ख) कर्नल ए० एल० शर्मा (एम० आर०-2612)	13-09-99 (ए० एन०)
(ग) कर्नल एम० एन० मथ (एम० आर०-2613)	21-10-2000 (ए० एन०)
(घ) कर्नल के० एस० भिमवाल (एम० आर०-3178)	04-10-2000 (ए० एन०)
(ङ) ले कर्नल के० एम० मल्ला (एम० आर०-2871)	30-06-99 (ए० एन०)
(च) ले कर्नल डी० बधावन (एम० आर०-3872)	25-10-99 (ए० एन०)
(छ) ले कर्नल के० एम० एस० पनवर (एम० आर०-3223)	9-3-2000 (ए० एन०)

मेजर जनरल जे० आर० भारद्वाज
अपर महानिदेशक

सं० 217, दिनांक 19 मार्च, 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं:—(बड़ी हुई अवधि समेत)

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन कमांडर ए० के० चौधरी (एम० आर०-2520) (75637) ए० एम० सी०/पी० सी०-31-8-00 (अपराह्न)।

सर्जन कैप्टन (श्रीमती) एम० पावा (एम० आर०-4615) (75638) ए० एम० सी०/पी० सी०-31-12-31-12-2000 (अपराह्न)।

सर्जन कमांडर आर० पांडा (एम० आर०-2852)
एम० सी०/पी० सी०-31-05-2000 (अपराह्न)।

सर्जन कमांडर पी० पी० बैलूबी (एम० आर०-3812)
(75160) ए० एम० सी०/पी० सी०-31-08-2000
(अपराह्न)।

मेजर जनरल जे० आर० भारद्वाज
अपर महानिदेशक

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 218, दिनांक 15 मार्च, 2001—अनुसंधान एवं विकास संगठन के निम्नलिखित अधिकारी की अधिवर्षिता अर्थात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के सामने लिखी तिथियों से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:—

(क) श्री एम० एल० जैन	30-06-2000
ए०सी०एम०ओ०	(01-07-2000 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)
(ख) श्री ओम प्रकाश, ए०सी०एम०ओ०	30-09-2000 (01-10-2000 से पेंशन स्थापना का स्थानांतरित)
(ग) श्री एम० के० धवन, पी० एस०	30-09-2000 (01-10-2000 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)
(घ) श्री आर० सी० कक्काड ए०सी०एम०ओ०	31-10-2000 (01-11-2000 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)
(ङ) श्री ओ० पी० गंगावानी पी०एस०	30-11-2000 (01-11-2000 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)

गणेश दामगुप्ता
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi the 21st April, 2001

No. 205, dated 14th March, 2001—The President is pleased to appoint Shri K.C. Mishra, CSS, on transfer from the Ministry of Health and Family Welfare, to Grade 1 of the CSS (Under Secretary) in the Ministry of Defence w.e.f. 1-3-2001 (FN), until further orders.

N. N. MATHUR
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 205, dated 20th March, 2001—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Gentlemen Cadets of 85 Technical Graduates Course (85 TGC) and 06 University Entry Scheme Course (06 UES) whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) and 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wof 13 Jun 98 under the terms and conditions of SAI 1/S/94 (TGC) and AI 2/93 (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wof 13 Jun 96 under SAI

1/S/94 for GCs of TGC course and AI 12/96 (Corrigendum No II of AI 2/93) for GCs of UES course :—

U/80 Gurinder Singh Uppal (IC-58071M) Engrs with the seniority below T/5530 P. S. Chandra P. Pal Singh (IC-58070K) Engrs, T/5522 Sailesh Prasad Pradhan (IC-58034K) Engrs and T/5529 Vikram Singh Rathor (IC-58035N) Engrs with the seniority below U/93 Athul An. Aul (IC-58033Y) EME, T/5520 Pema Dadul Gyasto (IC-58091A) EME with the seniority below U/83 S. Sathul Ranaiduair (IC-58090X) Engrs, T/5527 Vikas Kumaria (IC-58095W) EME with the seniority above U/93 Mathur Mayank Ratachandra (IC-58096Y) EME, T/5525 Deepak Kumar (IC-58121M) Engrs with the seniority below T/5525 Sudeep Lala (IC-58120K) Engrs, T/5531 Muthireddy Chandan Kumar (IC-58125H) EME with the seniority below U/82 Kumar Sanjay (IC-58124A) Sigs whose names have been published in the Gazette of India dated 10 Apr 99.

2. The undermentioned GCs are granted permanent commission in the rank of Lt with effect from 13 Jun 98 under the terms and conditions of AI 105 /61 :—

T/5540 GC Vikas Kumar Singh Rawat (IC-58094N) AEC.

T/5534 GC Sujit Kumar Karn (IC-58123X) AEC.

T/30391 GC Praveen Kumar (IC-58128W) AEC

SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned GCs of 85 Technical Graduates Course (85 TGC) and 06 University Entry Scheme Course (06 UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/8/94 for the GCs of TGC course and AI 2/93 for the GCs of UES course :—

IMA No.	SS No.	Name	ARM/ Service	Date of SSC on Probation
85 TECHNICAL GRADUATES COURSE				
T/5520	SS-37351M	Pema Dadul Gyasto	Sigs	10 Jul 1997
T/5522	SS-37353X	Sailesh Prasad Pradhan	Engrs	10 Jul 1997
T/5526	SS-37356L	Deepak Kumar	Engrs	10 Jul 1997
T/5527	SS-37357N	Vikas Kumaria	EME	10 Jul 1997
T/5529	SS-37359Y	Vikram Singh Rathor	EME	10 Jul 1997
T/5531	SS-37361W	Muthireddy Chandan Kumar	EME	10 Jul 1997
06 UNIVERSITY ENTRY SCHEME COURSE				
U/80	SS-37390L	Gurinder Singh Uppal	Engrs	08 Aug 1996

SS DHANKHAR
Lt Col
DAMS BB

NAVY BRANCH

No. 207, Dated 19 Mar 2001.—The President is pleased to make the following appointment in the Engineering Branch of the Indian Navy under direct entry scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DFS/1663/US(P)/D(N-II) Dated 29th September 1997 from the Date shown against their names ; -

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme (Engineering Branch)

Sl. No.	Name	Personal Number	Type of Commission	Date of Commission
1.	Amitabh Singh	42002-H	SSC	06-07-98
2.	Gladwins K. Henry	42014-K	SSC	28-08-98
3.	Bisen Sachin Madhao	42015-N	SSC	28-08-98
4.	Shashidhar K.	42017-T	SSC	41-08-98

KUMAR PARITOSH

Commander

DDMPR (R & R-II)

ARMY BRANCH

No. 208, dated 15 March, 2001—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar (No. 4064026P Now JC-528999K)—04th Nov. 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov. 1999 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Singh Bisht (No. 4059643N Now JC-529000L)—01st Aug 2000.

Hav Vijender Singh (No. 4065018H Now JC-529001N)—01st Oct 2000.

Hav Pushkar Singh Tomar (No. 4051194P Now JC-529002W)—22nd Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Saran Singh (No. 4059029Y Now JC-529003Y)—05th Nov 2000.

Hav Chandan Singh (No. 4060588P Now JC-529004F)—20th Nov 2000.

Hav Raj Kishor Singh (No. 4060588P Now JC-529005K)—20th Nov 2000.

Hav Gyan Singh (No. 4058491L Now JC-529006M)—01st Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26th Nov 2000 without effect on pay and allowances)

Hav Jaipal Singh (No. 4063744Y Now JC-529007P)—8th Jan 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Bijendra Singh (No. 4058939A Now JC-529008X)—01st Jan 2001.

Hav Bhagwan Singh (No. 4059616K Now JC-529009A)—01st Jan 2001.

Hav Raghubir Singh (No. 4059422F Now JC-529010P)—14th Jan 2001.

Hav Devi Prasad (No. 4061441F Now JC-528993H)—09th Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Kanchan Singh (No. 4059994H No. 5289941)—01st Jul 2000.

Hav Daljeet Singh Rawat (No. 4071464A Now JC-528995N)—05th Jul 2000.

Hav Uday Singh (No. 4038700X Now JC-528996W)—23rd Oct 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17th Sep 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Laxman Singh (No. 4059699L Now JC-528997Y)—01st Oct 2000.

Hav Narendra Singh Negi (No. 4058966K Now JC-528998F)—01st Nov 2000.

THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Subedar

Hav Ck (GD) Faquir Chand Chauhan (4549391 F now JC-568884Y)—01 Sep 2000.

Hav Ck (GD) Ram Singh Tanwar (4549451L now JC-568885F)—01 Sep 2000.

Hav Ck (GD) Ramphal Singh Tomar (4549475 P now JC-568886K)—01 Sep 2000.

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Anitulla Beg (13739931M Now JC-579101P)—04th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb without effect on pay and allowances wef 24th Sep 2000).

Hav Madan Lal (13741379W Now JC-579102X)—04 Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24th Sep 2000).

Hav Ram Krishan (13741485P Now JC-579103A)—04th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24th Sep 2000).

Hav Jamal Din (13740753N Now JC-579104H)—10th Oct 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01st Oct 2000).

Hav Romesh Kumar (13739959M Now JC-579105L)—01st Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 17th Oct 2000)

Hav Kirpal Singh (13740817F Now JC-579106N)—01st Nov 2000.

Hav Onkar Singh (13740166W Now JC-579107W)—01st Nov 2000.

Hav Kailash Chander (13740258H Now JC-579108Y)—01st Nov 2000.

Hav Chain Singh (13739741A Now JC-579109F)—24th Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Subedar without effect on pay and allowances wef 01st Nov 2000).

Hav Tulsi Dass Sharma (13739767P Now JC-579110W)—24th Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01st Nov 2000).

4—24 GI/2001

To be Nb Sub Ck (GD)

Hav. Ck Hari Krishan (13741864L Now JC-579111Y)—06th Nov 2000.*

*Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01st Nov 2000.

(To be Nb Sub Musician)

Hav/Musician Romesh Singh (13741897W Now JC-579100M)—04th Nov 2000*

*Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 04th Jan 2000.

(To be appointed Nb Sub Religious Teachers)

Nb Sub (RT) (Moulvi) Nazrul Haque JC-579048 P)—22nd July 2000.

THE JAT REGT

To be Nb Sub

Hav Baldev Rij (No. 3170145A now JC-488966-N)—5th Jan 2001*

*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 2000 without effect on pay and allowances.

Hav Jagdish Chander (No. 3170701L now JC-488962X)—7th Sep 2000

Hav Rameshwar Lal (No. 3174167W now JC-488963A)—11th Dec 2000

Hav Ved Parkash (No. 3170531M now JC-488964 H)—1st Jan 2001

To be Nb Sub Ck

Hav Ck Jagmal Singh Lamba (No. 3166717Y now JC-488965L)—1st Nov 2000.

JAK LI

To be Nb Subs (GD)

Hav Karan Singh (9083749N now JC-592751 F)—01 Nov 2000*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000)

Hav Nek Ram (9085418 L now JC-592752 K)—28 Nov 2000@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000)

Hav Main Lal (9085701Y now JC-592753 M)—03 Dec 2000

Hav Mohd Inam Khan (9086803F now JC-592754P)—01 Dec 2000

Hav Balbir Singh (9083679 X now JC-592745N)—15 Oct 2000*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2000)

Hav Malak Singh (9083339 X now JC 592746-W)—15 Oct 2000@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2000)

Hav Sansar Chand (9083317Y now JC-592747Y)—15 Oct 2000£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000)

Hav Gullu Ram (9083489N now JC-592748 F)—15 Oct 2000&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000)

Hav Vijay Kumar (9084050L now JC-592749 K)—29 Oct 2000\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000)

Hav Pahil Singh (9084747P now JC 592750Y)—14 Nov 2000)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000)

The Grenadiers

To be Nb Sub

Hav Puran Chand (No 2669180H now JC-449045-X)—1st Sep 2000

Hav Ramesh Singh (No. 2674721H now JC-449046A)—8th Sep 2000

Hav Daya Nand (No 2672791H now JC-449047-H)—2nd Oct 2000*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct. 2000 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Naresh Singh Yadav (No. 2683355 K now JC-449048L)—1st Oct 2000

Hav Jeet Ram (No. 2669131A now JC-449049-N)—18th Nov 2000*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Nov 2000 without effect on pay and allowances)

Hav Haroon Ali Khan (No. 2671051 F now JC-449050H)—1st Dec 2000

Hav Mukana Ram (No. 2667730 F now JC-449051L)—1st Dec 2000

Hav Banwari Lal (No. 2670121H now JC-449052-N)—1st Dec 2000

Hav Joginder Singh (No 2668640M now JC-449053W)—1st Dec 2000

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Jadhav Nanda (No. 2775460F Now JCi-458808K), 18th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27th Feb 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Pandurang Shamu Desai (No. 2777368F Now JC-458809M), 13th Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st May 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Tukaram Ambre (No. 2775536W Now JC-458810F), 20th Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19th May 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Kumbhar Raghunath Dadu (No. 2779556 F Now JC-458811K), 01st Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25th Jul 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Karawande Pralhad Ganapat (No. 27711-71P Now JC-458812M), 23rd Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Ramchandra Mahadik (No. 2778075H Now JC-458813P), 07th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Bhalerao Shankar Pundlikrao (No. 2781780 M Now JC-458814X), 07th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Dayaneshwar Ganpati Wangekar (No. 2776878W Now JC-458815A), 03rd Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Parit Sampat Shankar (No. 2776532M Now JC-458816H), 03rd Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Oct 2000 without effect on pay and allowance).

Hav Nikam Suryakant Maruti (No. 2778352H Now JC-458817L), 07th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Nov 2000 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk D Bilaji (No. 2778508P Now JC-458818N), 04th Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

5 GR (FF)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Surendra Singh Arya (No. 5450250A Now JC-617411M), 03rd Nov 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01st Nov 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Nitya Nand Tiwari (No. 5448677L Now JC-617412P), 01st Nov 2000.

Hav (Clk) Jadu Mani Budek (No. 5450300A Now JC-617413X), 01st Dec 2000.

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Ramesh Chand Candel (No. 3977984F Now JC-519197Y), 6th Sep 2000.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Amarjeet Singh Gathania (3977263X Now JC-519198F), 1st Oct 2000.

Hav Clk Ashok Kumar Koul (3981118X Now JC-519199K), 1st Nov 2000.

Hav Clk Sukhdev Sharma (3977960X Now JC-519200N), 1st Dec 2000.

Hav Clk Kuldip Chand Katoch (3981154H Now JC-519201W), 1st Dec 2000.

Hav (Clk) Gopal Singh Thakur (3977309P Now JC-519202Y)—1st Jan 2001.

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Yan Bahadur Gurung (No. 5342804K Now JC-612348Y), 01 Sep 2000.

Hav Krishna Bahadur Ghale (No. 5342835K Now JC-612349F), 01 Sep 2000.

Hav Nanda Bahadur Gurung (No. 5344301X Now JC-612350W), 01 Sep 2000.

Hav Prem Bahadur Rana (No. 5343685L Now JC-612351Y), 15 Oct 2000.

Hav Gajur Man Gurung (No. 5343365K Now JC-612352F), 01 Nov 2000.

Hav Kishan Thapa (No. 5345374W Now JC-612353K), 01 Nov 2000.

Hav Vijendra Kumar Thapa (No. 5343141W Now JC-612354M), 01 Nov 2000.

Hav Prem Kaji Gurung (No. 5344865A Now JC-612355P), 01 Nov 2000.

Hav Bal Krishan Gurung (No. 5344182M Now JC-612356X), 01 Dec 2000.

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Charan Singh (4463777X Now JC-508733W)—14 Aug 2000.

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Sharup Chand (4462553L Now JC-508734Y)—01 Jan 2001.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Lakhwinder Singh (3379467L Now JC-498900L)—07 Oct 2000.

Hav Surjit Singh (3380361L Now JC-498901N)—01 Oct 2000.

Hav Gurmeet Singh (3377422M Now JC-498902W)—01 Oct 2000.

Hav Balwant Singh (3379103Y Now JC-498903Y)—01 Oct 2000.

Hav Kirpal Singh (3382913M Now JC-498904F)—01 Oct 2000.

Hav Gurmit Singh (3378859M Now JC-492905K)—22 Oct 2000.

Hav Pritam Singh (3379544P Now JC-498906M)—01 Nov 2000.

Hav Satnam Singh (3379164W Now JC-498907P)—01 Dec 2000.

Hav Avtar Singh (3381407P Now JC-498908X)—01 Jan 2001.

Hav Jarnail Singh (3380654W Now JC-498909A)—01 Jan 2001.

Hav Karam Singh (3385819N Now JC-498910H)—14 Jan 2001.

Hav Kuldip Singh (3374370W Now JC-498995L)—01 Dec 2000.

Hav Jarnail Singh (3378793F Now JC-498896N)—01 Dec 2000.

Hav Satpal Singh (3382028L Now JC-498897W)—01 Dec 2000.

Hav Resham Singh (3382584F Now JC-498898Y)—01 Dec 2000.

Hav Harcharan Singh (3382524M Now JC-498899F)—01 Dec 2000.

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Ram Banhi Singh (No. 2975847W now JC-478899A)—1st Aug 2000.

Hav/Clk Rajvir Singh Parwar (No. 2976619X now JC-478906L)—1st Oct 2000.

Hav/Clk Brijgopal Singh (No. 2975583X now JC-478907N)—1st Oct 2000.

Hav/Clk Hari Prasad (No. 2977088X now JC-478919H)—1st Dec 2000.

Hav/Clk Kanwar Singh (No. 2977440W now JC-478920X)—1st Dec 2000.

To be Nb Sub

Hav Bhandra Singh (No. 2975790K now JC-478892W)—18th Apr 2000, gtd ante date seniority wef 1st Apr 2000 without effect on pay & allces.

Hav Ram Kishan (No. 2976855Y now JC-478893J) 30th Apr 2000.

Hav Janak Singh Gujar (No. 2976756W now JC-478894F)—23rd Sep 2000, gtd ante date seniority wef 30th Apr 2000 without effect on pay & Allces.

Hav Debi Singh (No. 2979527W now JC-478895K)—30th Apr 2000.

Hav Shiv Singh (No. 2977357Y now JC-478896M)—10th Aug 2000, gtd ante date seniority wef 13th Jun 2000 without effect on pay & allces.

Hav Raj Kumar (No. 2979636H now JC-478897P)—19th Jun 2000.

Hav Suvodh Kumar Mishra (No. 2977469Y now JC-478898X)—1st Jul 2000.

Hav Rajpal Singh Tanwar (No. 2980005M now JC-478900K)—30th Aug 2000, gtd ante date seniority wef 1st Aug 2000 without effect on pay & allces.

Hav Rameshwar Dayal (No. 2977387W now JC-478901M)—7th Aug 2000, gtd ante date seniority wef 1st Aug 2000 without effect on pay & allces.

Hav Hoshier Singh (No. 2978507W now JC-478902P)—11th Aug 2000.

Hav Vcd Ram Singh Bhati (No. 2975136N now JC-478903X)—1st Sep 2000.

Hav Nar Singh Bahadur Singh (No. 2977937N now JC-478904A)—1st Sep 2000.

Hav Prithvi Singh Rajput (No. 2971529M now JC-478905H)—1st Oct 2000.

Hav Havaladar Singh (No. 2979736N now JC-478908W)—1st Oct 2000.

Hav Roshan Lal (No. 2973883A now JC-478909Y)—1st Oct 2000.

Hav Ram Karan Gujar (No. 2979493N now JC-478910N)—1st Oct 2000.

Hav Ram Bhool Singh (No. 2979559Y now JC-478911W)—1st Oct 2000.

Hav Hare Pal Singh (No. 2979675F now JC-478912Y)—1st Oct 2000.

Hav Pratap Singh (No. 2974548H now JC-478913F)—5th Oct 2000.

Hav Naresh Chandra Sharma (No. 2977637M now JC-478914K)—14th Nov 2000, gtd ante date seniority wef 14th Oct 2000 without effect on pay & allces.

Hav Jagat Singh (No. 2975216L now JC-478915M)—26th Oct 2000.

Hav Vindhyachal Singh (No. 2976869Y now JC-478916P)—1st Nov 2000.

Hav Bhana Ram (No. 2980238N now JC-478917X)—1st Nov 2000.

Hav Sumesh Kumar (No. 2979425A now JC-478918A)—1st Nov 2000.

V. P. VARGHESE
Under Secy.

No. 209, dated 14th March 2001.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Shoukut Ali (JC-347022H), 26th Aug 2000.

Nb Sub (GD) Ajit Singh (JC-347800H), 17th Aug 2000.

Nb Sub (GD) Gurbachan Singh (JC-347711K), 30th Sep 2000.

Nb Sub (GD) Mehar Singh (JC 347718N), 16th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Ramdas (JC-347720L), 9th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Gurswak Singh (JC-347771Y), 14th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Kapil Dev Dubey (JC-347790K), 29th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Raghu Singh (JC-347802N), 2nd Dec 2000.

Nb Sub (GD) Salwinder Singh (JC-347531F), 1st Dec 2000.

Nb Sub (GD) Nimbalkar Mahadeo Jagannath (JC-347716H), 18th Dec 2000.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub (Clk GD) Guimail Singh (JC-347613K), 13th Sep 2000.

Nb Sub (Clk GD) Ram Asare Pal (JC-347614M), 8th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Bhagwan Singh (JC-347668N), 9th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jasmail Singh (JC-347637N), 9th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Shamsher Singh (JC-347618H), 2nd Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Satwinder Singh (JC-347646P), 6th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Gurpal Singh (JC-347639Y), 6th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Raghva Singh (JC 347619L), 24th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jamuna Prasad (JC-347642Y), 20th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Dhruv Singh (JC-347641W), 11th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jasad Dean (JC 347620A), 8th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Deb Singh (JC-347647X), 14th Dec 2000.

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Ranjit Singh (JC 216113W), 21st Nov 2000.

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Shahaji Waghmode (JC-186325K), 20th May 2000.

Sub (GD) Gurnam Singh Bhatoya (JC-182598P), 2nd Aug. 2000.

Sub (GD) Dilbag Singh (JC-186335N), 5th Aug 2000.

Sub (GD) Thukaram Laxman Nikam (JC-191663L), 9th Aug 2000.

Sub (GD) Ajit Lakra (JC203062P), 1st Nov 2000.

Sub (GD) Gajender Singh (JC-191667F), 27th Nov 2000.

Sub (GD) Phad Padmakar Bhimrao (JC-197262M), 23rd Nov 2000.

Sub (GD) Bant Singh (JC-197268N), 22nd Nov 2000.

Sub (GD) Mast Ram (JC-191629L), 19th Dec 2000.

To be Subedar Major Clk (GD)

Sub (Clk GD) Solanki Parsotam Kanji (JC-203115H), 23rd Oct 2000.

Sub (Clk GD) Sarup Singh (JC-203125), 15th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Puni Lal (JC-203119Y), 23rd Oct 2000.

Sub (Clk GD) Sukhmander Singh (JC-203116L), 10th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Niazuddin (JC-203011F), 7th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Gurdarshan Singh (JC-203015X), 1st Nov 2000.

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj Clk (GD)

Sub Clk Kondaya Prasadadugula (JC-215796H), 01 Aug 1999.

Sub Clk Abdul Rahiman S (JC-215848N), 01 Aug 1999.

Sub Clk Balachandran V (JC-215856M), 01 Apr 2000.

Sub Clk Mukundan KK (JC-215811M), 01 May 2000.

Sub Clk Venugopal KS (JC-215872K), 01 May 2000.

Sub Clk C Deily Christirayan (JC-219351N), 01 May 2000.

Sub Clk Vaigheso ME (JC-219352W), 01 May 2000.

Sub Clk Saleem PA (JC-219354F), 01 May 2000.

Sub Clk Somasundaran PV (JC-219356M), 01 May 2000.

Sub Clk Sasidharan KR (JC-219363H), 01 May 2000.

Sub Clk D Dhanan Jaya Rao (JC-219366W), 01 May 2000.

Sub Clk Jagdish Rai (JC-219368F), 01 May 2000.

Sub Clk Jose KS (JC-219378L), 01 May 2000.

Sub Clk Stanislaus Mathias (JC-219387M), 01 May 2000.

Sub Clk Mathew Paul (JC-219391P), 01 May 2000.

Sub Clk Pavithran PC (JC-219393A), 01 May 2000.

Sub Clk A Chellappan (JC-219405K), 01 May 2000.

Sub Clk J Gnanasekar (JC-219425X), 01 May 2000.

Sub Clk Rajaram K (JC-215834N), 01 May 2000.

Sub Clk G Ramakrishnan (JC-219340F), 01 May 2000.

Sub Clk Sankaran K (JC-207464K), 01 May 2000.

Sub Clk Janardhanan Nair R (JC-210306A), 01 May 2000.

Sub Clk N Monickam (JC-215805Y), 01 May 2000.

Sub Clk Abdul Kureem CK (JC-210307H), 01 May 2000.

Sub Clk Robert Solomon (JC-215800A), 01 May 2000.

Sub Clk Sree Kumar R (JC-215855K), 01 May 2000.

Sub Clk Anantha Padmanabhan V (JC-210309W), 01 May 2000.

Sub Clk Lakshmanan PV (JC-215818W), 01 May 2000.

Sub Clk Narasimhan A (JC-215839M), 01 May 2000.

Sub Clk T Ganesan (JC-219343P), 01 May 2000.

Sub Clk Kodanda Rama (JC-219359A), 01 May 2000.

Sub Clk Muniswamy R (JC-219364L), 01 Jun 2000.

Sub Clk F Mark (JC-219365N), 01 Jun 2000.

Sub Clk Venugopalan P (JC-219392X), 01 Jun 2000.

Sub Clk Ravindran KK (JC-219413H), 01 Aug 2000.

Sub Clk Somarajan Nair J (JC-219444H), 01 Sep 2000.

Sub Clk Pavithran PV (JC-219496Y), 01 Oct 2000.

Sub Clk Sidharthan T (JC-219505P), 01 Nov 2000.

To be Substantive Sub Maj SKT

Sub SKT Krishna Velar Murugesan (JC-184834K), 01 Aug 1999.

Sub SKT Rangineedi Lakshinarayana (JC-202772A), 07 Dec 1999.

Sub SKT Muraleedharan Pillai B (JC-210353X), 07 Dec 1999.

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Mahadevaiah (JC-305347P), 01 Apr 1999.

Nb Sub Clk B Rajendran (JC-305387W), 01 Aug 1999.

Nb Sub Clk Channaveer Gouda Mudli Goudar (JC-305388Y), 01 Aug 1999.

Nb Sub Clk PK Velmani (JC-305391Y), 01 Aug 1999.

Nb Sub Clk Venkatesan S (JC-305393K), 01 Aug 1999.

Nb Sub Clk Janardanan MV (JC-305394M), 01 Aug 1999.

Nb Sub Clk Surat Ram Yadav (JC-305439F), 01 Nov 1999.

Nb Sub Clk John Thomson (JC-305495A), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk PS Venkatraman (JC-305496H), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Sundaran K (JC-305498N), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Shaik Abdul Khader (JC-305499W), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Vijayakrishnan K (JC-305500A), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Lawrence D (JC-305503N), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Parameswarah Pillai K (JC-305505Y), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Jayan S (JC-305506F), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Vijayan A (JC-305507K), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk Suresh Kurup R (JC-305510K), 07 Dec 1999.

Nb Sub Clk R Janarthanam (JC-305513X), 07 Dec 1999.

- Nb Sub Clk Mamidala Ramgopal Rao (JC-305514A), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Chalati Unnikrishnan (JC-305515H), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Chandrasekharan P (JC-305516L), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Venugopalan K (JC-305517N), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Dayanand Bhavikatti (JC-305556M), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Shivashankar Jatti (JC-305557P), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk C Srinivasan (JC-305559A), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Krishnan M (JC-305562A), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk D Selvaraj (JC-305563H), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Baby KT (JC-305564L), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Sajeewan S (JC-305565N), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Sudarshanan Nair G (JC-305566W), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Makkaru CM (JC-305567Y), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Vijayan M (JC-305569K), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Sathcesh Kumar AK (305598Y), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk K Durai (JC-305599F), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Vanukuri Bhavani Sankar (JC-305600L), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Suresan P (JC-305601N), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk P Mani (JC-305602W), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk SS Nurayana Reddy (JC-305603Y), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Pavitharan MK (JC-305613H), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk K Rajendran (JC-305614L), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Miraz Mohammed Liyakat Ali Baig (JC-305615N), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Ratnagiri Rao Gullapalli (JC-305616W), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Tainana Ranga Nayakulu (JC-305617Y), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Narayanan MK (JC-305618F), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Padmakumar S (JC-305619K), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Mahesh Babu KR (JC-305734K), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Murali S (JC-305621F), 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Krishna Nanda JC-305639K, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Bhaskar B JC-305642X, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Surendran Vazhayil JC-305644H, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk K Dhanapaul JC-305650W, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk R Mani JC-305652F, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Gandhinathan T JC-305653K, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk T Narayanan Nair JC-305994P, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Muraleedharan P JC-305656X, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Jaya Singh R JC-305657A, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Koragappa BK JC-305658H, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Purushothaman Palliprath JC-305659L, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk K Ganesan JC-305660A, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk V Lakshmanan JC-305666F, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Lohithakshan K JC-305667K, 07 Dec 1999.
- Nb Sub Clk Vijayakumar PS JC-305669P, 01 Jan 2000.
- Nb Sub Clk C Masillamony JC-305673X, 01 Jan 2000.
- Nb Sub Clk S Abdul Rassol JC-305675H, 01 Jan 2000.
- Nb Sub Clk C Krishnan JC-305285A, 01 Feb 2000.
- Nb Sub Clk Sukumaran K JC-305672P, 01 Mar 2000.
- Nb Sub Clk Karthamada M Rajakumar JC-305676L, 01 Mar 2000.
- Nb Sub Clk Hole Basayya Budnimath JC-305721M, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Arun Bolishetty JC-305722P, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Iqbal Ahmed Makander JC-305724A, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Srinivas Chebiyyam JC-305725H, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Umakant Mishra JC-305735M, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Anantha Damodara Naidu JC-305738A, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Mathai Y JC-305739H, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Krishnan R JC-305740X, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk M Anandan JC-305741A, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk A Kulandai JC-305743L, 01 Apr 2000.
- Nb Sub Clk Senthilvel S JC-305744N, 01 May 2000.
- Nb Sub Clk V Ramu JC-305745W, 01 May 2000.
- Nb Sub Clk S Gunasekaran JC-305746Y, 01 May 2000.
- Nb Sub Clk Vasudevan MP JC-305747F, 01 May 2000.
- Nb Sub Clk Padmarajan KK JC-305750F, 01 May 2000.
- Nb Sub Clk K Chandrasekaran JC-305752M, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk D Subba Rama Raju JC-305753P, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk Rajan TA JC-305754X, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk S Subbaiah JC-305787H, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk John G JC-305789N, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk Kumaran Nair G JC-305790H, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk Laxminarayana Mishra JC-305792N, 01 Jun 2000.
- Nb Sub Clk VK Jayapal Raja Singh JC-305793W, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Lalit Mohan Negi JC-305874W, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk K Dakshinamoorthy JC-305795F, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Ningappa Gangal JC-305796K, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Suresh Muniappa Gol JC-305797M, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk S Raju Chinna Appala Raju JC-305867A, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Benith Nazerth JC-305798P, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Koteswara Rao Velety JC-305799X, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk M Nagarajan JC-305803P, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk M Subba Reddy JC-305804X, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk D Purnananda JC-305805A, 01 Jul 2000.
- Nb Sub Clk Dharam Pal JC-305806H, 01 Aug 2000.
- Nb Sub Clk Anthony J Lopez JC-305831F, 01 Aug 2000.

Nb Sub Ck D Marshal Thampi (JC-305832K), 01 Aug 2000.

Nb Sub Ck R Botharaj (JC-305833M), 01 Aug 2000.

Nb Sub Ck Govindasamy S (JC-305834P), 01 Aug 2000.

Nb Sub Ck Kurian PJ (JC-305836A), 01 Aug 2000.

Nb Sub Ck Gollamudi Prabhu Das (JC-305837H), 01 Sep 2000.

Nb Sub Ck Pradip Kumar Das (JC-305841L), 01 Sep 2000.

Nb Sub Ck Haridasan V (JC-305853A), 01 Sep 2000.

Nb Sub Ck Ramachandran Nair M (JC-305869L), 01 Oct 2000.

Nb Sub Ck Rajinder Prakash (JC-305856N), 01 Oct 2000.

Nb Sub Ck Raju I. (JC-305857W), 01 Oct 2000.

Nb Sub Ck Sreedharan Thoroth (JC-305858Y), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ck Narahari Giribhattanayir (JC-305860W), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ck Rajender Paul (JC-305861Y), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ck Shaik Ismail (JC-305868H), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ck Selvaraju R (JC-305871H), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ck Ram Lakhan Pandey (JC-305873N), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ck Kommasani V Ramana Reddy (JC-305875Y), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ck Rajaram (JC-305876F), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ck V Vijaya Kumar (JC-305877K), 01 Dec 2000.

To be Substantive Sub SKST

Nb Sub SKT Vijayan PR (JC-305913K), 01 Aug 1999.

Nb Sub SKT Basalingappa Bogar (JC-305915P), 07 Dec 1999.

Nb Sub SKT Radhakrishnan Nair P (JC-305917A), 07 Dec 1999.

Nb Sub SKT Mohandas KT (JC-305918H), 07 Dec 1999.

Nb Sub SKT Bhan Singh (JC-305919L), 01 Mar 2000.

Nb Sub SKT Mohender Singh (JC-305960F), 01 Apr 2000.

Nb Sub SKT Suresh Singh Dahiya (JC-305961K), 01 Jun 2000.

Nb Sub SKT Bhim Singh (JC-305962M), 01 Jul 2000.

Nb Sub SKT Leelu Ram (JC-305963P), 01 Jul 2000.

Nb Sub SKT Samsher Singh (JC-305964X), 01 Jul 2000.

Nb Sub SKT Kaptan Singh (JC-305965A), 01 Aug 2000.

To be Substantive Sub Ck (Store)

Nb Sub Ck (Store) Jose VJ (JC-306451P), 01 Aug 2000.

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

PA Sub Maj Jawahar Prasad (JC-174872M), 01-09-2000.

PA Sub Maj Madan Kishor Singh (JC-177101H), 01-10-2000.

PA Sub Maj Nirmal Singh (JC-177105Y), 01-10-2000.

PA Sub Maj Shish Ram (JC-182445L), 01-11-2000.

PA Sub Maj Khem Bahadur Gurng (JC-182466F), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ram Dayal Singh (JC-182469P), 01-11-2000.

PA Sub Maj Parnam Singh (JC-184746N), 01-11-2000.

PA Sub Maj Jaadish Singh (JC-182475H), 01-12-2000.

PA Sub Maj Shiv Raj Singh (JC-182483F), 01-12-2000.

PA Sub Maj Bans Narain Roy (JC-182488A), 01-01-2001.

To be Substantive Sub Maj Ck (GD)

PA Sub Maj Ck (GD) Ram Chandra Shukla (JC-02868H), 01-07-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Sunit Ranjan Dev (JC-207880N), 01-07-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Om Singh (JC-202939Y), 01-07-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Karamjit Singh (JC-182516F), 01-08-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Om Prakash (JC-210549L), 01-08-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Nomal Chandra Chetia (JC-210520A), 01-08-2000.

PA Sub Maj Ck (ST) Jitendra Kumar P (JC-224823H), 01-09-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Romesh Chander (JC-210554W), 01-10-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Kiran Sankar Mukerjee (JC-210560K), 01-10-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Ramesh Chander Sharma (JC-210564A), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Pani Ram Arya (JC-210565H), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Jatindra Nath Sharma (JC-210570N), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Tehal Singh (JC-210586Y), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Ramendra Kumar Chakravorty (JC-210572Y), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Balak Ram Sharma (JC-210603N), 01-11-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Raghvendra Pratap Mishra (JC-210605Y), 01-12-2000.

PA Sub Maj Ck (GD) Govind Singh (JC-210573F), 01-12-2000.

To be Substantive Sub Maj (Svy)

PA Maj Svy Sewa Singh (JC-199757X), 01-05-2000.

To be Substantive Sub (GD)

PA Sub Mehar Singh (JC-215908Y), 01-07-2000.

PA Sub Gama Singh (JC-325467P), 01-07-2000.

PA Sub Jiwan Singh (JC-325468X), 01-07-2000.

PA Sub Dalbir Singh (JC-325573N), 01-07-2000.

PA Sub Girish Chandra (JC-325470P), 01-07-2000.

PA Sub Ram Chander Singh (JC-325575Y), 01-08-2000.

PA Sub Naresh Kumar (JC-325576F), 01-09-2000.

PA Sub Ram Bali Singh (JC-325578M), 01-09-2000.

PA Sub Bhima Churan Giri (JC-325580K), 01-09-2000.

PA Sub Kuldip Singh (JC-325234N), 01-09-2000.

PA Sub Ram Datt Joshi (JC-325582P), 01-09-2000.

PA Sub Suraj Bhan (JC-325584A), 01-09-2000.

PA Sub Diljit Singh SM (JC-325122N), 01-09-2000
 PA Sub Iqbal Chand (JC-325585H), 01-09-2000
 PA Sub Mahendra Singh (JC-325684L), 01-09-2000
 PA Sub Prabhoo Nath Singh (JC-325772F), 01-10-2000
 PA Sub Hari Singh (JC-325706Y), 01-10-2000
 PA Sub Dinesh Chandra Juyal (JC-325774M), 01-10-2000
 PA Sub Devendra Prasad Singh (JC-325707F), 01-10-2000
 PA Sub Basant Balabhai Iohani (JC-325775P), 01-10-2000
 PA Sub Kirpal Singh (JC-325794A), 01-10-2000
 PA Sub Palwinder Singh (JC-325777A), 01-11-2000
 PA Sub Daya Nand (JC-325778H), 01-11-2000
 PA Sub Foza Singh (JC-325779L), 01-11-2000
 PA Sub Kulbani Singh (JC-325859H), 01-11-2000
 PA Sub Bij Bihari Singh (JC-325709M), 01-11-2000
 PA Sub Dan Singh (JC-325781H), 1-11-2000
 PA Sub Devendra Singh (JC-325782I), 01-11-2000
 PA Sub Bhim Singh (JC-325710F), 01-12-2000
 PA Sub Kameshwar Prasad Singh (JC-325860X), 01-12-2000
 PA Sub Parshotam Singh (JC-325711K), 01-12-2000
 PA Sub Sajeet Singh (JC-325712M), 01-12-2000
 PA Sub Roop Nath (JC-325784W), 01-12-2000
 To be Substantive Sub Clk (GD)
 PA Sub Clk (GD) Bimal Dhamari (JC-325528F), 01-01-2000
 PA Sub Clk (GD) Raj Pal Singh (JC-325534P), 01-01-2000
 PA Sub Clk (GD) Harish Chand (JC-325181A), 01-06-2000
 PA Sub Clk (GD) Binod Shankar Mishra (JC-325549X), 01-07-2000
 PA Sub Clk (GD) Himangshu Sekhar Nath (JC-325550M), 01-08-2000
 PA Sub SKT Jagtar Singh (JC-325204W), 01-07-2000
 PA Sub Clk (GD) Ramesh Chander (JC-325552X), 01-08-2000
 PA Sub Clk (GD) Sit Paul (JC-325307P), 01-08-2000
 PA Sub Clk (GD) Faku Chand (JC-325685N), 01-09-2000
 PA Sub Clk (GD) Mahesh Kumar Brahma (JC-325598A), 01-09-2000
 PA Sub Clk (GD) Prakash Singh Yadav (JC-325599H), 01-09-2000
 PA Sub Clk (GD) Rakesh Kumar Sharma (JC-325600M), 01-09-2000
 PA Sub Clk (GD) Dharam Pal (JC-325601P), 01-09-2000
 PA Sub Clk (GD) Ashok Kumar Sahu (JC-325602X), 01-10-2000
 PA Sub Clk (GD) Hrish Chandra Pandey (JC-325603H), 01-10-2000
 PA Sub Clk (GD) Dev Raj Sharma (JC-325604H), 01-10-2000
 PA Sub Clk (GD) Narendra Prasad Sharma (JC-325605W), 01-10-2000
 PA Sub Clk (GD) Surendra Kumar (JC-325606I), 01-10-2000

PA Sub Clk (GD) Soban Singh (JC-325606N), 01-01-2001

PA Sub Clk (GD) Bhura (JC-325608Y), 01-01-2001

(To be Subs Sub Svy)

PA Sub Svy Awdhes Kimal Singh (JC-325053H), 01-03-98

PA Sub Svy Surinder Singh (JC-326479W), 01-09-2000

PA Sub Svy Akram Ali (JC-325816N), 01-11-2000

R K OJHA
Dy Sécy

No. 210, dated 16th March 2001—The President is pleased to make the following promotions —

REGULAR ARMY

CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar Major (Y of S)

Sub Pradip Kumar Lal (JC-175751X), 1st Aug 2000

Sub Hardev Singh (JC-175752A), 1st Aug 2000

Sub Anthony Joseph (JC-175755N), 1st Sep 2000

Sub Jaedish Chand (JC-175758H), 1st Oct 2000

Sub Surinder Pal (JC-180932M), 1st Nov 2000

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Baldev Ram (JC-172846M), 1st Aug 2000

Sub M Mathulagan (JC-172853H), 1st Aug 2000

Sub Manickava Sugam Kamachi Sundaram (JC-172855N), 1st Sep 2000

Sub Anop Singh Shekhawat (JC-173617N), 1st Jan 2001

Sub Pawan Kumar (JC-173620N), 1st Jan 2001

Sub Bhai Bahadur Pal (JC-188329Y), 1st Jan 2001

To be Substantive Subedar Major (OP Ciph)

Sub Bishambhar Dass (JC-188047A), 1st July 2000

Sub Parkash Chand (JC-182158F), 1st Aug 2000

Sub Ambika Roy (JC-188040W), 1st Nov 2000

Sub Bhogeswar Bordoloi (JC-188061M), 1st Nov 2000

Sub Anand Singh Negi (JC-188062P), 1st Dec 2000

Sub Joginder Singh (JC-188067N), 1st Dec 2000

Sub Kshatish Chandra Singh (JC-188068W), 1st Dec 2000

Sub Loka Singh (JC-188077X), 1st Dec 2000

To be Substantive Subedar Major (OP Spec)

Sub Datta Lal Mishra (JC-215318Y), 1st June 2000

Sub Ram Prasad Mishra (JC-214270K), 1st Sep 2000

Sub Bhagat Ram Sharma (JC-214271N), 1st Oct 2000

Sub Purnima Singh (JC-214278W), 1st Oct 2000

Sub Virendra Narayan Verma (JC-367370I), 1st Oct 2000

Sub Preeti Malik (JC-215332I), 1st Dec 2000

Sub Mohan Ram Sharma (JC-215332I), 1st Dec 2000

To be Substantive Subedar Major (Clk GD)

Sub Ramchandra Choudhary (JC-220548W), 1st Sep 2000

Sub Chacko M V (JC-220552Y), 1st Dec 2000

Sub Jagrup Singh (JC-220556P), 1st Jan 2001.

To be Substantive Subedar Major (SKT)

Sub Daler Singh Pathania (JC-197701M), 1st Aug 2000.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Bansidhar Pradhan (JC-220415A), 1st June 2000.

Sub Shri Om Bojgge (JC-221468L), 1st July 2000.

Sub Dharam Paul (JC-221337A), 1st July 2000.

Sub Bhupal Singh Kunwar (JC-223442P), 1st Aug 2000.

Sub Sudaishan Kumar (JC-221475F), 1st Sep 2000.

Sub Mohan Lal (JC-221476K), 1st Sep 2000.

Sub Birmani Singha (JC-221479X), 1st Oct 2000.

Sub Ram Kumar Kushwaha (JC-367029N), 1st Oct 2000.

Sub Rabinder Kumar (JC-367030H), 1st Oct 2000.

Sub Magan Bihari Pandey (JC-367031L), 1st Oct 2000.

Sub Sita Ram (JC-367040M), 1st Oct 2000.

Sub Ramesh Chand (JC-221481P), 1st Oct 2000.

Sub Jaipal Singh Manav (JC-367044H), 1st Nov 2000.

Sub Hoshiyar Singh Yadava (JC-367047W), 1st Nov 2000.

Sub Abdul Sattar (JC-367053K), 1st Nov 2000.

Sub Ram Ayodhya Singh (JC-367054M), 1st Nov 2000.

Sub Kishori Lal (JC-367055P), 1st Nov 2000.

Sub Ramji (JC-367059L), 1st Dec 2000.

Sub Shanker Bhagwan Bhagat (JC-220390Y), 1st Jan 2001.

Sub Sukh Raj (JC-223454K), 1st Jan 2001.

Sub Ashok Kumar Upadhyay (JC-223458A), 1st Jan 2001.

ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Nb Sub (MT)

Hav Nabindia Kumar Singh (No. 13860409M now JC-661957M), 01 Apr 2000.

Hav Ram Pratap (No. 13859884W now JC-661958P), 10 Jul 2000.*

Hav Subhash Chandra (No. 13859871Y now JC-661959X), 10 Jun 2000.%

Hav Nanak Singh (No. 13859928H now JC-661960M), 13 May 2000.%

Hav Karan Singh (No. 13859992A now JC-661961P), 10 May 2000.%

Hav Ram Pal Singh (No. 13855882N now JC-661962X), 11 May 2000.%

Hav Ram Binod Singh (No. 13832177H now JC-661963A), 16 May 2000.%

Hav Daulat Ram (No. 13832505L now JC-661964H), 27 May 2000.%

Hav Ram Narayan (No. 13832501Y now JC-661965L), 09 Jun 2000.%

Hav Monindra Kumar Singh (No. 13832170L now JC-661967W), 17 May 2000.%

Hav Chinta Mani Pal (No. 13861764W now JC-661968Y), 05 Jun 2000.%

Hav Ramesh Chand (No. 13832422A now JC-661969F), 03 Jul 2000.@

Hav Shankar Prasad Das (No. 13863412X now JC-661970W), 10 May 2000.%

Hav Ram Asharya (No. 13833073N now JC-661971Y), 11 May 2000.%

Hav Laxman Ram Sharma (No. 13863524X now JC-661972F), 15 May 2000.%

Hav Nepal Manghi (No. 13863537P now JC-661973K), 25 May 2000.%

*(Date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2000 without effect on pay and allowances).

%(Date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2000 without effect on pay and allowances).

@(Date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allowances).

To be Subs (MT)

Naib Subedar Bishav Nath (JC-660398X), 21 Feb 2000

Naib Subedar Daya Nand (JC-661001W), 05 Feb 2000.*

Naib Subedar Ram Chhabile (JC-661065F), 30 Nov 99.%

Naib Subedar Surendra Prasad (JC-6661184X), 23 Mar 2000.@

Naib Subedar Madan Kishore Sharma (JC-661427X), 28 Mar 2000.£

Naib Subedar Pushkar Singh Bhandari (JC-661194F), 01 Feb 2000.

Naib Subedar Gam Prasad Pun (JC-661195K), 16 Mar 2000.&

Naib Subedar Mahender Bhagat (JC-661171A), 01 Mar 2000.

Naib Subedar Shambhu Nath Sharma (JC-661196M), 06 Mar 2000.\$

Naib Subedar Jagdish Chander (JC-661211P), 01 Apr 2000.

Naib Subedar Ram Niwas (JC-661197P), 01 Apr 2000.

Naib Subedar Sobh Nath (JC-661165M), 01 May 2000.

*(Date of seniority with effect from 06 Dec 99 without effect on pay and allice).

%(Date of seniority with effect from 01 Jun 99 without effect on pay and allice).

@(Date of seniority with effect from 01 Sep 99 without effect on pay and allice).

£(Date of seniority with effect from 01 Oct 99 without effect on pay and allice).

&(Date of seniority with effect from 01 Feb 2000 without effect on pay and allice).

\$(Date of seniority with effect from 01 Mar 2000 without effect on pay and allice).

Naib Subedar Hira Lal Mahto (JC-661656H), 01 Jun 2000.*

Naib Subedar Akulanand Jena (JC-660821W), 08 Sep 2000.%

Naib Subedar Sudhir Prasad Singh (JC-661331P), 25 Aug 2000.@

Naib Subedar Rajender Singh Khatri (JC-661160N), 01 Jun 2000.£

Naib Subedar Joginder Lal (JC-661212Y), 01 Apr 2000.

Naib Subedar Prahlad Singh (JC-661166P), 01 May 2000.

Naib Subedar Onkar Singh Rana (JC-661219H), 29 Aug 2000.&

Naib Subedar Gulzar Singh (JC-661170X), 30 Aug 2000.&

Naib Subedar Keshraj Singh (JC-661168A), 13 Sep 2000.&

*(Date of seniority with effect from 01 Oct 99 without effect on pay and allces).

% (Date of seniority with effect from 01 Jun 98 without effect on pay and allces).

@ (Date of seniority with effect from 01 Jun 99 without effect on pay and allces).

£ (Date of seniority with effect from 01 Apr 2000 without effect on pay and allces).

& (Date of seniority with effect from 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Anjani Kumar (JC-661246M), 29 Aug 2000.&

Naib Subedar Hans Raj Yadav (JC-661574A), 31 Aug 2000.&

Naib Subedar Mohan Ram (JC-661280M), 01 Jun 2000.

Naib Subedar Niranjana Mohanty (JC-661222H), 01 Jun 2000.

Naib Subedar Devendra Pal Singh (JC-661224N), 31 Aug 2000.&

Naib Subedar Madan Lal (JC-661225W), 31 Aug 2000.—

Naib Subedar Gopal Dass (JC-661251X), 01 Jul 2000.

Naib Subedar Sandip Kumar Chakraborty (JC-661228K), 21 Sep 2000.+

Naib Subedar Narsa Ram Jais (JC-661306W), 31 Aug 2000.+

Naib Subedar Gajraj Singh (JC-661230F), 18 Sep 2000.+

Naib Subedar Ajit Kumar Singh (JC-661255N), 01 Aug 2000.

£ (Date of seniority with effect from 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).

+(Date of seniority with effect from 01 Jul 2000 without effect on pay and allces).

R. CHATURVEDI, Under Secy.

No. 211 dated 14 March 2001.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

REGULAR ARMY

Defence Security Corps

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Ram Kumar (JC-142649P), 01 Nov 2000.

Subedar Sawan Singh (JC-135129F), 01 Dec 2000.

Subedar Surjit Singh (JC-123679X), 01 Dec 2000.

Subedar Jiba Nand (JC-128404N), 01 Dec 2000.

Subedar Puran Singh (JC-103426F), 01 Dec 2000.

Subedar Jattu Ram (JC-137803Y), 01 Dec 2000.

Subedar Jai Prakash (JC-137493Y), 01 Dec 2000.

Subedar Tarsem Singh (JC-114106M), 01 Dec 2000.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Bhagwat Singh (JC-840064P), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ram Kishan Singh (JC-840078P), 01 Nov 2000.

Nb Sub Rohtas Singh (JC-840075F), 01 Dec 2000.

Nb Sub Shiv Raj Singh Chauhan (JC-840132X), 01 Dec 2000.

Nb Sub Poochan Chitra Vel (JC-840062K), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-840079X), 01 Dec 2000.

Nb Sub Kanwar Singh (JC-840081P), 01 Dec 2000.

Nb Sub Raja Ram (JC-840068L), 01 Dec 2000.

Nb Sub Lachhi Ram (JC-840114P), 01 Dec 2000.

Nb Sub Megh Singh (JC-840092F), 01 Dec 2000.

Nb Sub Ravindra Prasad Singh (JC-186070P), 01 Dec 2000.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Siya Ram Prasad Yadav (JC-125183F), 01 Oct 2000.

Subedar Dara Singh (JC-117767X), 01 Nov 2000.

Subedar P Balasundaram (JC-114408H), 01 Nov 2000.

Subedar Tarsem Singh (JC-103533H), 01 Nov 2000.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub V N Krishnan Nair (JC-840048X), 01 Oct 2000.

Nb Sub Harbhajan Singh Sandhu (JC-840053H), 01 Oct 2000.

Nb Sub Kuldip Singh (JC-840055N), 01 Oct 2000.

Nb Sub Kanaiya Singh (JC-129571W), 01 Nov 2000.

Nb Sub Bala Ram More (JC-146586P), 01 Nov 2000.

Nb Sub Rajendar Singh (JC-142237N), 01 Nov 2000.

Nb Sub Munish Chand (JC-183378X), 01 Nov 2000.

Nb Sub Ram Kishan (JC-128093L), 01 Nov 2000.

Nb Sub Sita Ram Rana (JC-171125W), 01 Nov 2000.

Nb Sub Piara Singh (JC-142486M), 01 Nov 2000.

Nb Sub Gulzar Singh (JC-186566K), 01 Nov 2000.

Nb Sub Satbir Singh Chauhan (JC-166990L), 01 Nov 2000.

R. S. CHOUDHARY, Under Secy.

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 212 dated 15 March 2001.—The President is pleased to promote Shri K R Omana Kuttan, Chargeman-I to the grade of Officiating Workshop Officer Group 'B' (Now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 07 Feb 2001 (Forenoon).

He will remain on probation for two years.

The President is pleased to promote Shri Nirmal Sancha (ST) Senior Store Superintendent to the grade of Officiating Workshop Officer Group 'B' (Now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 10 Feb 2001 (Forenoon).

He will remain on probation for two years.

The President is pleased to promote Shri DS Mishra, Chargeman-I (Fitter) (Part II Cadre) to the grade of officiating Workshop Officer Group 'B' (Now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 09 Feb 2001 (Forenoon).

He will remain on probation for two years.

The President is pleased to promote Shri G Radhakrishna, Chargeman-I to the grade of Officiating Workshop Officer Group 'B' (Now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 07 Feb 2001 (Forenoon).

He will remain on probation for two years.

The President is pleased to promote Shri K Shankaran Kutty Nair Chargeman-I to the grade of Officiating Workshop Officer Group 'B' (Now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 07 Feb 2001 (Forenoon).

He will remain on probation for two years.

T. C. JAIN
Dy Secy.

No. 213, dated 19th March 2001.—The President is pleased to make the following promotion(s) :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen to be Lt Gen

BN Shashi, AVSM, VSM, PHS (MR-2562W) AMC/PC, 09-11-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-09-2000).

Brig to be Maj Gen

VW Tilak (MR-2325) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

HS Gill (MR-2127) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

AK Misuriya (MR-2336) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

AK Lahiri (MR-2224) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

PRS Rathore (MR-2500) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

RK Gupta (MR-2511) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-06-2000).

TRS Bedi (MR-2082) AMC/PC, 01-06-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 19-12-97).

Capt to be Major

B S Deepak (MR-07312Y) AMC, 14 Jan 2000.

Anjani Kumar Singh (MR-07195Y) AMC, 14 Jan 2000.

KV Radhakrishna (MR-07305H) AMC, 14 Jan 2000.

Manu Tandon (MR-07317X) AMC, 14 Jan 2000.

Manohi Diwakar (MR-07327K) AMC, 14 Jan 2000.

S K Mishra (MR-07370H) AMC, 14 Jan 2000.

Debasisa Datta (MR-07383A) AMC, 14 Jan 2000.

(Mrs) Rajvinder Kaur (MR 07369P) AMC, 14 Jan 2000.

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Sanjeev Kumar (MR-07212N), (75599) AMC, 14 Jan 2000.

S K Sahu (MR-06944X) (75589F) AMC, 14 Jan 2000.

B Vikas (MR-07447A) (75621) AMC, 04 Sep 2000.

R Badisb (MR-06802A) (75588) AMC, 14 Jan 2000.

J R BHARDWAJ, Maj Gen
Addl. DGAEMS

No. 214, dated 20th March 2001.—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78, as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Col to be Brig (or equivalent)

V P Sachdeva (DR-10231K), 12-12-2000.

Wg Cdr to be Gp Capt (or equivalent)

Vimal Arora (DR-10298H) (AF-16025), 01-6-2000 with notional seniority from 01-06-2000.

Major to be Lt Col

Tarun Kumar (DR-10408M), 29-11-2000.

Capt to be Maj

M. Prakash (DR-10453X), 26-9-2000 with seniority for promotion in the rank of Maj from 28-8-97 without effect on pay and allowances.

Lt to be Capt

Amul Khattak (DR-10500L), 09-3-2000.

M3 Monita Ahuja (DR-10501N), 21-11-2000.

R. K. SEHRI, Brig
Dy DGDS
Addl De Gen Dental Services

No. 215, dated 19th March 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be substantive Col

BP Singh (IC-33852), JAG, 01st Jul 1997.

RS Rana (IC-30527), Inf, 01st Jun 1998.

Majors to be substantive Lt Col (By Time Scale).

Rakesh Bhalla (IC-38410A), AC, 14 Jan 2000.

Kulwarian Singh (IC-38769F), Inf, 07 Jun 2000.

HS Sharma (IC-38409), Inf, 14 Jan 2000.

Indrajeet Singh (IC-39021H), AOC, 07 Jun 2000.

RK Chugh (IC-38979F), Signal, 07 Jun 2000.

RP Verma (IC-38868K), Int Corps, 07 Jun 2000.

Amul Avasthi (IC-39015F), AOC, 07 Jun 2000.

Mukesh Kapoor (IC-38935K), Arts, 07 Jun 2000.

BK Jaiswal (IC-38848W), AD Arty, 07 Jun 2000.

RK Sawhney (IC-37600A), Inf, 30 Apr 2000.

Sumit Jain (IC-39003K), Inf, 07 Jun 2000.
 PK Sehgal (IC-38888X), Int Corps, 07 Jun 2000.
 Mukesh Kumar (IC-38990A), Inf, 07 Jun 2000.
 Om Parkash (IC-38079X), Inf, 09 Jun 2000.
 SK Rathore (IC-38914N), Inf, 07 Jun 2000.
 Budh Ram (IC-38345L), Inf, 14 Jan 2000.
 VK Choubey (IC-40667K), Engrs, 12 Jun 2000.
 JP Singh (IC-38965F), Inf, 07 Jun 2000.
 NS Solanki (IC-40669P), Signal, 12 Jun 2000.
 KK Sajju (IC-37585W), Inf, 30 Apr 2000.
 Sandip Khanna (IC-40657A), EME, 12 Jun 2000.
 AK Singh (IC-38828H), ASC, 07 Jun 2000.
 SK Sharma (IC-39046A), AEC, 07 Jun 2000.
 BS Dhaliwal (IC-38862H), Inf, 07 Jun 2000.
 Anjani Kumar (IC-38982F), Arty, 07 Jun 2000.
 AK Mehta (IC-38793X), Inf, 07 Jun 2000.
 Madhu Berty (IC-38378W), Arty, 14 Jan 2000.
 AK Dutta (IC-37589M), AD Arty, 30 Apr 2000.
 GB Thapliyal (IC-37583L), Inf, 30 Apr 2000.
 Neeraj Tandon (IC-38346N), Signal, 14 Jan 2000.
 SK Sharma (IC-40647W), Signal, 12 Jun 2000.
 Harsh Pahwa (IC-38881M), Arty, 07 Jun 2000.
 PJ Singh (IC-37708X), Inf, 14 Nov 2000.
 SS Sval (IC-38924X), 07 Jun 2000.
 VK Guin (IC-36512), EME, 21 Oct 1994.
 Maj to be Substantive Lt Col by Selection
 RS Rana (IC-30527), Inf, 30 Dec 1994.
 BP Singh (IC-33859), JAG, 30 Dec 1994.
 Jayanta Sarkar (IC-33865), Sigs, 30 Jun 1995.
 D Kumar (IC-36263), Inf, 31 Dec 1995.
 DH Micheal (IC-33946), Inf, 30 Jun 1995.

S S SINHA
 CSO/DAMS 8A

ARMY BRANCH

No. 216, dated 19th March 2001.—The President is pleased to grant premature retirement w.e.f. date shown against each to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Col SK Biswas (MR-2616), 25-09-1999 (A/N).
 Col AL Sharma (MR-2612), 13-09-1999 (A/N).
 Col MN Math (MR-2613), 21-10-2000 (A/N).
 Col KS Bhimwal (MR-3178), 04-10-200 (A/N).

Lt Col KS Saluja (MR-2871), 30-06-1999 (A/N).
 Lt Col D Wadhawan (MR-3872), 25-10-1999 (A/N).
 Lt Col KSS Panwar (MR-3223), 09-03-2000 (A/N).

J R BHARDWAJ, Gen Maj
 Addl DGAFMS

No. 217, dated 19th March 2001.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation (including extended period) as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg Cmde AK Chaudhri (MR-2520) (75637) AMC/PC, 31-08-2000 (A/N).

Surg Capt (Mrs) M Pawah (MR-4615) (75638) AMC/PC, 31-12-2000 (A/N).

Sing Cdr R Panda (MR-2852) (75141) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Surg Cdr PP Bellubbi (MR-3821) (75160) AMC/PC, 31-08-2000 (A/N).

J R BHARDWAJ, Maj Gen.
 Addl DGAFMS

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 218, dated 15th March 2001.—On attaining the age of superannuation viz 60 years, the following officers of R&D Orgn retired from Govt service w.e.f. the dates shown against each :—

Shri ML Jain, ACSO, 30-6-2000 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-7-2000).

Shri Om Parkash, ACSO, 30-9-2000 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-10-2000).

Shri SK Dhawan, PS, 30-9-2000 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-10-2000).

Shri RC Kakkar, ACSO, 31-10-2000 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-11-2000).

Shri OP Gangwani, PS, 30-11-2000 (Transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-11-2000).

SANTOSH DASGUPTA
 Dy Chief Administrative Officer (Adm.)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 219, dated 14th March 2001.—In Ministry of Defence Notification No. 515 dt 22 Sep 2000, published in Gazette of India No. 44 dated 28 Oct 2000 (Part I Section 4), under the heading 'Regular Army' sub heading 'Defence Security Corps' below 'To be substantive Subedar (GD)' :—

'For'—Nb Sub Mantu Ram Yadav JC-240032-M, 01 Jun 2000.

'Read'—Nb Sub Mantu Ram Yadav JC-840032-M, 01 Jun 2000.

R. S. CHOUDHARY
 Under Secy.